

# Das-Lakshan Dharma Maha-Parva

*Uttam Kshama Mardav Aarjav  
Satya Shaunch Sanyam Tap Tyag  
Aakinchanya Brahmacharya*



## Dharma Ke Dashalakshana

## Table of Contents

(List of दशलक्षण- Daśalakṣaṇa Pūjā)

Title	Page#
दशलक्षण-धर्मपूजा	Daśalakṣaṇa-dharma Pūjā 05
सोलहकारण-भावनापूजा	Sōlahakāraṇa-Bhāvanā Pūjā 18
श्रीपंचमेरु-पूजा	Śrī Pañcamēru-Pūjā 36
श्रीनंदीश्वर-द्वीप-पूजा	Śrī Nandīśvara-Dvīpa-Pūjā 44
श्रीरत्नत्रय-पूजा	Śrī Ratnatraya-Pūjā 52
सम्यग्दर्शनपूजा	Samyagdarśana Pūjā 56
सम्यग्ज्ञानपूजा	Samyagjñāna Pūjā 61
सम्यक्चारित्रपूजा	Samyakcāritra Pūjā 65
स्वयंभूस्तोत्र-भाषा	Svayambhūstōtra-Bhāṣā 72
क्षमावणीपर्व-पूजा	Kṣamāvaṇī Parva-Pūjā 88

The ten universal virtues of the daslakshan parva (दसलक्षण पर्व) are:

Ten Daslakshan Parva	Meaning
1. Uttam Kshama Dharma उत्तम क्षमा धर्म	Forgiveness
2. Uttam Mardav Dharma उत्तम मार्दव धर्म	Tenderness or humility
3. Uttam Arjava Dharma उत्तम आर्जव धर्म	Honesty
4. Uttam Shauch Dharma उत्तम शौच धर्म	Contentment or purity
5. Uttam Satya Dharma उत्तम सत्य धर्म	Truthfulness
6. Uttam Sanyam Dharm उत्तम संयम धर्म	Self-restraint
7. Uttam Tap Dharma उत्तम तप धर्म	Austerities or penance
8. Uttam Tyag Dharma उत्तम त्याग धर्म	Renunciation
9. Uttam Akinchan Dharm उत्तम अकिंचन धर्म	Non-Attachment
10. Uttam Brahmachary Dharm उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म	Chastity

- Uttam Kshama Dharma (उत्तम क्षमा धर्म) – Supreme Forgiveness: To observe tolerance whole-heartedly, shunning anger.
- Uttam Mardava Dharma (उत्तम मार्दव धर्म) – Tenderness or Humility: To observe the virtue of humility subduing vanity and passions.
- Uttam Aarjava Dharma (उत्तम आर्जव धर्म) – Straight-forwardness or Honesty: To practice a deceit-free conduct in life by vanquishing the passion of deception.
- Uttam Shauch Dharma (उत्तम शौच धर्म) – Contentment or Purity: To keep the body, mind and speech pure by discarding greed.

- Uttam Satya Dharma (उत्तम सत्य धर्म) – Truthfulness: To speak affectionate and just words with a holy intention causing no injury to any living being.
- Uttam Sanyam Dharma (उत्तम संयम धर्म) – Self-restraint: To defend all living beings with utmost power in a cosmopolitan spirit abstaining from all the pleasures provided by the five senses - touch, taste, smell, sight, and hearing; and the sixth - mind.
- Uttam Tap Dharma (उत्तम तप धर्म) – Penance or Austerities: To practice austerities putting a check on all worldly allurements.
- Uttam Tyag Dharma (उत्तम त्याग धर्म) – Renunciation: To give fourfold charities, Ahara (food), Abhaya(fearlessness), Aushadha (medicine), and Shastra Dana (distribution of Holy Scriptures), and to patronize social and religious institutions for self and other uplifts.
- Uttam Akinchan Dharma (उत्तम अकिंचन धर्म) – Non-attachment: To enhance faith in the real self as against non-self i.e., material objects; and to discard internal Parigraha (परिग्रह ) viz. anger and pride; and external Parigraha (परिग्रह ) viz. accumulation of gold, diamonds, and royal treasures.
- Uttam Brahmachary Dharma (उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म) – Chastity or celibacy: To observe the great vow of celibacy; to have devotion for the inner soul and the omniscient Lord; to discard the carnal desires, vulgar fashions, child and old-age marriages, dowry dominated.

# दशलक्षण-धर्मपूजा Daśalakṣaṇa-dharma pūjā

(अडिल्ल छन्द)

उत्तमछिमा मारदव आरजव भाव हैं, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव हैं ।  
 आकिंचन ब्रह्मचर्य धरम दश सार हैं, चहुँगति दुःख तें काढि मुकति करतार हैं ॥  
 ओं ह्रीं श्री उत्तमक्षमादि-दशलक्षणधर्म! अत्र अवतर अवतर संवौषट्! (आह्वाननम्)  
 ओं ह्रीं श्री उत्तमक्षमादि-दशलक्षणधर्म! अत्र तिष्ठ तिष्ठठः ठः! (स्थापनम्)  
 ओं ह्रीं श्री उत्तमक्षमादि-दशलक्षणधर्म! अत्र मम सत्रिहितो भव भव षट्! (सत्रिधिकरणम्)

(adilla chanda)

Uttamachimā māradava ārajava bhāva haim,  
 satya śauca sanyama tapa tyāga upāva haim |  
 Ākiñcana brahmacarya dharama daśa sāra haim,  
 cahum̄gati du:Kha tem kārhi mukati karatāra haim ||  
*Om hrīm śrī uttamakṣamādi-daśalakṣaṇadharma!*  
*Atra avatara avatara sanvauṣat! (āhvānanam)*  
*Om hrīm śrī uttamakṣamādi-daśalakṣaṇadharma!*  
*Atra tiṣṭha tiṣṭha ṣha: tha:! (Sthāpanam)*  
*Om hrīm śrī uttamakṣamādi-daśalakṣaṇadharma!*  
*Atra mama satrīhitō bhava bhava vaṣat! (satridhikaranam)*

(सोरठाछन्द)

हेमाचल की धार, मुनि-चित सम शीतल सुरभि । भव-आताप निवार, दस-लक्षण पूजूं सदा ॥  
 ओं ह्रीं श्री उत्तमक्षमा-मार्दव-आर्जव-सत्य-शौच-संयम-तप-त्याग- आकिञ्चन्य-ब्रह्मचर्येति  
 दशलक्षणधर्मय जन्म-जरा-मृत्यु-विनाशनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा ।१।

(sōraṭhā chanda)

Hēmācala kī dhāra, muni-cita sama śītala surabhi |

Bhava-ātāpa nivāra, dasa-lakṣaṇa pūjum sadā ||

*Om hrīṁ śrī uttamakṣamā-mārdava-ārjava-satya-  
śauca-sanyama-tapa-tyāga- ākiñcan 'ya-brahmacaryēti  
daśalakṣaṇadharmaṇya janma-jarā-mṛtyu-  
vināśanāya jalāṁ nirvapamiiti Svāhā |1|*

चंदन-केशर गर, होय सुवास दशों दिशा | भव-आताप निवार, दस-लक्षण पूजूं सदा ||

ओं ह्रीं श्री उत्तमक्षमादि-दशलक्षणधर्मय भवताप-विनाशनाय चंदनं निर्वपामीति स्वाहा |२।

Candana-kēśara gāra, hōya suvāsa daśōṁ diśā |

Bhava-ātāpa nivāra, dasa-lakṣaṇa pūjum sadā ||

*Om hrīṁ śrī uttamakṣamādi-daśalakṣaṇadharmaṇya  
bhavatāpa-vināśanāya candanāṁ nirvapamiiti svāhā |2|*

अमल अखंडित सार, तंदुल चंद्र-समान शुभ | भव-आताप निवार, दस-लक्षण पूजूं सदा ||

ओं ह्रीं श्री उत्तमक्षमादि-दशलक्षणधर्मय अक्षयपद-प्राप्तये अक्षतान्निर्वपामीति स्वाहा |३।

Amala akhaṇḍita sāra, tandula candra-samāna śubha |

Bhava-ātāpa nivāra, dasa-lakṣaṇa pūjum sadā ||

*Om hrīṁ śrī uttamakṣamādi-daśalakṣaṇadharmaṇya  
akṣayapada-prāptayē akṣatān nirvapamiiti Svāhā |3|*

फूल अनेक प्रकार, महके ऊरथ-लोक लों | भव-आताप निवार, दस-लक्षण पूजूं सदा ||

ओं ह्रीं श्री उत्तमक्षमादि-दशलक्षणधर्मय कामबाण-विध्वंसनाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा |४।

Phūla anēka prakāra, mahakēṁ ūradha-lōka lōṁ |

Bhava-ātāpa nivāra, dasa-lakṣaṇa pūjum sadā ||

*Om hrīṁ śrī uttamakṣamādi-daśalakṣaṇadharmaṇya  
kāmabāṇa-vidhvansanāya puṣpam nirvapamiiti Svāhā |4|*

नेवज विविध निहार, उत्तम षट्-रस संजुगत | भव-आताप निवार, दस-लक्षण पूजूं सदा ||  
ओं ह्रीं श्री उत्तमक्षमादि-दशलक्षणधर्मय क्षुधारोग-विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।५।

Nēvaja vividha nihāra, uttama ṣaṭ-rasa sañjugata |  
Bhava-ātāpa nivāra, dasa-lakṣaṇa pūjum sadā ||  
*Om hrīṁ śrī uttamakṣamādi-daśalakṣaṇadharmaṁ  
kṣudharōga-vināśanāya naivēdyam nirvapamiiti Svāhā* |5|

बाति कपूर सुधार, दीपक-जोति सुहावनी | भव-आताप निवार, दस-लक्षण पूजूं सदा ||  
ओं ह्रीं श्री उत्तमक्षमादि-दशलक्षणधर्मय मोहांधकार-विनाशनाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।६।

Bāti kapūra sudhāra, dīpaka-jōti suhāvanī |  
Bhava-ātāpa nivāra, dasa-lakṣaṇa pūjum sadā ||  
*Om hrīṁ śrī uttamakṣamādi-daśalakṣaṇadharmaṁ  
mōhāndhkāra-vināśanāya dīpam nirvapamiiti Svāhā* |6|

अगर धूप विस्तार, फैले सर्व सुगंधता | भव-आताप निवार, दस-लक्षण पूजूं सदा ||  
ओं ह्रीं श्री उत्तमक्षमादि-दशलक्षणधर्मय अष्टकर्म-दहनाय धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।७।

Agara dhūpa vistāra, phailē sarva sugandhatā |  
Bhava-ātāpa nivāra, dasa-lakṣaṇa pūjum sadā ||  
*Om hrīṁ śrī uttamakṣamādi-daśalakṣaṇadharmaṁ  
aṣṭakarma-dahanāya dhūpam nirvapāmīti svāhā* |7|

फल की जाति अपार, ग्राण-नयन-मन-मोहने | भव-आताप निवार, दस-लक्षण पूजूं सदा ||  
ओं ह्रीं श्री उत्तमक्षमादि-दशलक्षणधर्मय मोक्षफल-प्राप्तये फलं निर्वपामीति स्वाहा ।८।

Phala kī jāti apāra, ghrāṇa-nayana-mana-mōhanē |  
Bhava-ātāpa nivāra, dasa-lakṣaṇa pūjum sadā ||  
*Om hrīṁ śrī uttamakṣamādi-daśalakṣaṇadharmaṁ  
mōkṣaphala-prāptayē phalam nirvapamiiti Svāhā* |8|

आठों दरब संवार, ‘द्यानत’ अधिक उछाह सों | भव-आताप निवार, दस-लक्षण पूजूं सदा ||  
ओं ह्रीं उत्तमक्षमादि-दशलक्षणधर्मय अनर्घ्यपद-प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।१।

Āṭhōṁ daraba sanvāra, ‘dyānata’ adhika uchāha sōṁ |  
Bhava-ātāpa nivāra, dasa-lakṣaṇa pūjum sadā ||  
*Om hrīṁ uttamakṣamādi-daśalakṣaṇadharmaṁya  
anarghyapada-prāptayē arghyam nirvapāmīti svāhā |9|*

(सोरठा) (दस धर्म-अंग पूजा)  
पीड़े दुष्ट अनेक, बाँध मारबहुविधि करें | धरिये छिमा-विवेक, कोप न कीजे पीतमा ||

(Sōraṭhā) (dasa dharma-aṅga pūjā)  
Pīrem duṣṭa anēka, bāṁdha māra bahuvidhi karem |  
Dhariyē chimā-vivēka, kōpa na kījai pītamā ||

(चौपाई छन्द)  
उत्तम-छिमा गहो रे भाई, इहभव जस परभव सुखदाई |  
गाली सुनि मन खेद न आनो, गुन को औगुन कहे अयानो ||

(Caupāi chanda)  
Uttama-chimā gahō rē bhāi, ihabhava jasa parabhava sukhadāi |  
Gālī suni mana khēda na ānō, guna kō auguna kahe ayānō ||

(गीताछन्द)  
कहि है अयानो वस्तु छीने, बाँध मार बहुविधि करे |  
घर तें निकारे तन विदारे, बैर जो न तहाँ धरे ||  
तैं करम पूरब किये खोटे, सहे क्यों नहिं जीयरा |  
अति क्रोध-अगनि बुझाय प्रानी, साम्य-जल ले सीयरा ||  
ओं ह्रीं श्री उत्तम क्षमा धर्मगाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।१।

(Gītā chanda)

Kahi hai ayānō vastu chīnē, bāṁdha māra bahuvidhi kare |

Ghara tem nikāre tana vidāre, baira jō na tahāṁ dhare ||

Taim karama pūraba kiyē khōṭē, sahe kyōṁ nahim jīyarā |

Ati krōdha-agani bujhāya prānī, sāmya-jala lē sīyarā ||

*Om hrīṁ śrī uttamakṣamādharmāṅgāya  
arghyam nirvapāmīti svāhā |1|*

मान महा विषरूप, करहि नीच-गति जगत्मे |

कोमल-सुधा अनूप, सुख पावे प्रानी सदा ||

उत्तम-मार्दव-गुन मन माना, मान करन को कौन ठिकाना |

बस्यो निगोद माहि तें आया, दमड़ी-रूकन भाग बिकाया ||

रूकन बिकाया भाग वशतें, देव इकइंद्री भया |

उत्तम मुआ चांडाल हूवा, भूप कीड़ों में गया ||

जीतव्य जोवन धन गुमान, कहा करे जल-बुदबुदा |

करि विनय बहु-गुन बड़े जन की, ज्ञान का पावें उदा ||

ओं ह्रीं श्री उत्तम मार्दव धर्मांगाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा |२|

Māna mahā viśarūpa, karahi nīca-gati jagat mēṁ |

Kōmala-sudhā anūpa, sukha pāvē prānī sadā ||

Uttama-mārdava-guna mana mānā,

māna karana kō kauna ḫikānā |

Basyō nigōda māhi tem āyā, damaṛī-rūkana bhāga bikāyā ||

Rūkana bikāyā bhāga vaśatem, dēva ika'indrī bhayā |

Uttama mu'ā cāṇḍāla hūvā, bhūpa kīrōṁ mēṁ gayā ||

Jītavya jōvana dhana gumāna, kahā kare jala-budabudā |

Kari vinaya bahu-guna barē jana kī, jñāna kā pāvem udā ||

*Om hrīṁ śrī uttama mārdava dharmāṅgāya  
arghyam nirvapāmīti svāhā |2|*

कपट न कीजे कोय, चोरन के पुर ना बसें |  
 सरल-सुभावी होय, ताके घर बहु-संपदा ||  
 उत्तम आर्जव-रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुःखदानी |  
 मन में हो सो वचन उचरिये, वचन होय सो तन सों करिये ||  
 करिये सरल तिहुँ जोग अपने, देख निरमल आरसी |  
 मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट-प्रीति अंगार-सी ||  
 नहिं लहे लछमी अधिक छल करि, कर्म-बंध-विशेषता |  
 भय-त्यागि दूध बिलाव पीवे, आपदा नहिं देखता ||  
 ओं ह्रीं श्री उत्तम आर्जव धर्मांगाय अर्ध्यं निर्वपामीति स्वाहा ।३।

Kapaṭa na kīje kōya, cōrana kē pura nā basem |  
 Sarala-subhāvī hōya, tākē ghara bahu-sampadā ||  
 Uttama ārjava-rīti bakhānī, rañcaka dagā bahuta du:Khadānī |  
 Mana mēṁ hō sō vacana ucariyē,  
 vacana hōya so tana sōm kariyē ||  
 Kariyē sarala tihum̄ jōga apanē, dēkha niramala ārasī |  
 Mukha karē jaisā lakhē taisā, kapaṭa-prīti aṅgāra-sī||  
 Nahim̄ lahe lachamī adhika chala kari,  
 karma-bandha-viśēsatā |  
 Bhaya-tyāgi dūdha bilāva pīvē, āpadā nahim̄ dēkhata ||  
 Om hrīm̄ śrī uttam aarjava dharmāngāya  
 arghyam̄ nirvapāmīti svāhā |3|

कठिन-वचन मत बोल, पर-निंदा अरु झूठ तज |  
 साँच जवाहर खोल, सतवादी जग में सुखी ||  
 उत्तम-सत्य-वरत पालीजे, पर-विश्वासघात नहिं कीजे|  
 साँचे-झूठे मानुष देखो, आपन-पूत स्वपास न पेखो ||  
 पेखो तिहायत पुरुष साँचे, को दरब सब दीजिए |  
 मुनिराज-श्रावक की प्रतिष्ठा, साँच-गुण लख लीजिये ||  
 ऊँचे सिंहासन बैठि वसु-नृप, धरम का भूपति भया |

वच-झूठ-सेती नरक पहुँचा, सुरग में नारद गया ॥  
ओं ह्रीं श्री उत्तम सत्यधर्मगाय अर्द्ध निर्वपामीति स्वाहा ।४।

Kaṭhina-vacana mata bōla, para-nindā aru jhūṭha taja ।  
Sāṁca javāhara khōla, satavādī jaga mēṁ sukhī ॥  
Uttama-satya-varata pālīje, para-viśvāsaghāta nahim kīje ।  
Sāṁcē-jhūṭhē mānuṣa dēkhō, āpana-pūta svapāsa na pēkhō ॥  
Pēkhō tihāyata puruṣa sāṁcē, kō daraba saba dīji’ē ।  
Munirāja-śrāvaka kī pratiṣṭhā, sāṁca-guṇa lakha lījiyē ॥  
Ūṁcē sinhāsana baiṭhi vasu-nṛpa, dharama kā bhūpati bhayā ।  
Vaca-jhūṭha-sētī naraka pahuṁcā, suraga mēṁ nārada gayā ॥

*Om hrīṁ śrī uttama satya dharmāṅgāya  
arghyam nrvaipāmīti svāhā |4|*

धरि हिरदै संतोष, करहु तपस्या देह सों ।  
शौच सदा निरदोष, धरम बड़ो संसार में ॥  
उत्तम शौच सर्व-जग जाना, लोभ‘पाप को बाप’ बखाना ।  
आशा-पास महादुःखदानी, सुख पावे संतोषी प्रानी ॥  
प्रानी सदा शुचि शील-जप-तप, ज्ञान-ध्यान प्रभाव तें ।  
नित गंग जमुन समुद्र न्हाये, अशुचि-दोष स्वभाव तें ॥  
ऊपर अमल मल-भर्यो भीतर, कौन विधि घट शुचि कहे ।  
बहु देह मैली सुगुन-थैली, शौच-गुन साधु लहे ॥  
ओं ह्रीं श्री उत्तम शौच धर्मगाय अर्द्ध निर्वपामीति स्वाहा ।५।

Dhari hiradai santōṣa, karahu tapasyā dēha sōm ।  
Śauca sadā niradōṣa, dharama barō sansāra mēṁ ॥  
Uttama śauca sarva-jaga jānā, lōbha ‘pāpa kō bāpa’ bakhānā ।  
Āśā-pāsa mahādu:Khadānī, sukha pāvē santōṣī prānī ॥  
Prānī sadā śuci śīla-japa-tapa, jñāna-dhyāna prabhāva tem ।  
Nita gaṅga jamuna samudra nhāyē, aśuci-dōṣa svabhāva tem ॥  
Ūpara amala mala-bharyō bhītara, kauna vidhi ghaṭa śuci kahe ।

Bahu dēha mailī suguna-thailī, śauca-guna sādhu lahe ||

*Om hrīm śrī uttama shauch dharmāṅgāya  
arghyam nirvapāmīti svāhā |5|*

काय-छहों प्रतिपाल, पंचेन्द्री-मन वश करो | संयम-रतन संभाल, विषय-चोर बहु फिरत हैं ||

उत्तम संजम गहु मन मेरे, भव-भव के भाजे अघ तेरे |

सुरग-नरक-पशुगति में नाहीं, आलस-हरन करन सुख ठाहीं ||

ठाहीं पृथी जल आग मारूत, रूख त्रस करुना धरो |

सपरसन रसना ध्रान नैना, कान मन सब वश करो ||

जिस बिना नहिं जिनराज सीझे, तू रुल्यो जग-कीच में |

इक घरी मत विसरो करो नित, आव जम-मुख बीच में ||

ओं हीं श्री उत्तम संयम धर्मांगाय अर्ध्यं निर्वपामीति स्वाहा ।६।

Kāya-chahōṁ pratipāla, pañcēndrī-mana v aśa karō |

Sanyama-ratana sambhāla, viṣaya-cōra buhu phirata haim ||

Uttama sañjama gahu mana mērē,

bhava-bhava kē bhājem agha tērē |

Suraga-naraka-paśugati mēm nāhīṁ,

ālasa-harana karana sukha ṭhāhīṁ ||

Thāhīṁ pr̥thī jala āga māruta, rūkha trasa karunā dharō |

Saparasana rasanā ghrāna nainā, kāna mana saba vaśa karō ||

Jisa binā nahim jinarāja sījhē, tū rulyō jaga-kīca mēm |

Ika gharī mata visarō karō nita, āva jama-mukha bīca mēm ||

*Om hrīm śrī uttama samyam dharmāṅgāya*

*arghyam nirvapāmīti svāhā |6|*

तप चाहें सुराय, करम-शिखर को वज्र है |

द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निज सकति सम ||

उत्तम तप सब-माँहिं बखाना, करम-शैल को वज्र-समाना |

बस्यो अनादि-निगोद-मङ्गारा, भू-विकलत्रय-पशु-तन धारा ||

धारा मनुष्-तन महा-दुर्लभ, सुकुल आयु निरोगता |

श्री जैनवानी तत्त्वज्ञानी, भई विषय-पयोगता ॥  
 अति महादुर्लभ त्याग विषय, कषाय जो तप आदरें ।  
 नर-भव अनूपम कनक-घरपर, मणिमयी-कलसा धरें ॥  
 ओं ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय अर्द्धं निर्वपामीति स्वाहा ।७।

Tapa cāhēṁ surarāya, karama-śikhara kō vajra hai |  
 Dvādaśavidhi sukhadāya, kyōṁ na karē nije sakati sama ||  
 Uttama tapa saba-māṁhim bakhānā,  
 karama-śaila kō vajra-samānā |  
 Basyō anādi-nigōda-mamjhārā,  
 bhū-vikalatraya-paśu-tana dhārā ||  
 Dhārā manuṣa-tana mahā-durlabha, sukula āyu nirōgatā |  
 Śrī jainavānī tattvajñānī, bhai viṣaya-payōgatā ||  
 Ati mahāduralabha tyāga viṣaya, kaṣāya jō tapa ādaren |  
 Nara-bhava anūpama kanaka-ghara para,  
 maṇimayī-kalasā dharem ||  
*Om hrīṁ śrī uttama tap dharmāṅgāya  
arghyam nirvapāmīti svāhā |७|*

दान चार परकार, चार संघ को दीजिए ।  
 धन बिजुली उनहार, नर-भव लाहो लीजिए ॥  
 उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा ।  
 निहचैराग-द्वेष निरवारे, ज्ञाता दोनों दान संभारे ॥  
 दोनों संभारे कूपजल-सम, दरब घर में परिनया ।  
 निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाय-खोया बह गया ॥  
 धनि साधु शास्त्र अभय-दिवैया, त्याग राग-विरोध को ।  
 बिन दान श्रावक-साधु दोनों, लहें नाहीं बोध को ॥  
 ओं ह्रीं श्री उत्तम त्याग धर्मांगाय अर्द्धं निर्वपामीति स्वाहा ।८।

Dāna cāra parakāra, cāra saṅgha kō dīji'ē |  
 Dhana bijulī unahāra, nara-bhava lāhō līji'ē ||  
 Uttama tyāga kahyō jaga sārā, auśadha śāstra abhaya āhārā |

Nihacai rāga-dvēṣa niravāre, jñātā dōnōṁ dāna sambhārē ||  
Dōnōṁ sambhārē kūpajala-sama, daraba ghara mēṁ parinayā |

Nija hātha dījē sātha lījē, khāya-khōyā baha gayā ||  
Dhani sādhu sāstra abhaya-divaiyā, tyāga rāga-virōdha kō |  
Bina dāna śrāvaka-sādhu dōnōṁ, lahem nāhīṁ bōdha kō ||

*Om hrīṁ śrī uttama tyaag dharmāṅgāya  
arghyam nirvapāmīti svāhā |8|*

परिग्रह चौबीस भेद, त्याग करें मुनिराज जी |  
तिसना भाव उछेद, घटती जान घटाइए ||  
उत्तम आकिंचन गुण जानो, परिग्रह-चिंता दुःख ही मानो |  
फाँस तनक-सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुःख भाले ||  
भाले न समता सुख कभी नर, बिना मुनि-मुद्रा धरे |  
धनि नगन पर तन-नगन ठाढ़े, सुर-असुर पायनि परें ||  
घर-माँहिं तिसना जो घटावे, रुचि नहीं संसार-सों |  
बहु-धन बुरा हू भला कहिये, लीन पर उपगार कों ||  
ओं ह्रीं श्री उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय अर्द्धं निर्वपामीति स्वाहा |९|

Parigraha caubīsa bhēda, tyāga karaiṁ munirāja jī |  
Tisanā bhāva uchēda, ghaṭatī jāna ghaṭā’i’ē ||  
Uttama ākiñcana guṇa jānō,  
parigraha-cintā du:Kha hī mānō. Phāṁsa tanaka-sī tana mēṁ sāle,  
cāha laṅgōṭī kī du:Kha bhāle.  
Bhāle na samatā sukha kabhī nara,  
binā muni-mudrā dhare. Dhani nagana para  
tana-nagana ṭhāṛhē, sura-asura pāyani pareṁ.  
Ghara-māṁhim tisanā jō ghaṭāvē, ruci nahīṁ  
sansāra-sōṁ. Bahu-dhana burā hū bhalā kahiyē,  
līna para upagāra-kōṁ..  
*Om hrīṁ śrī uttama aakinchanya dharmāṅgāya  
arghyam nirvapāmīti svāhā |9|*

शील-बाड़ नौ राख, ब्रह्म-भाव अंतर लखो ।  
 करि दोनों अभिलाख, करहु सफल नर-भव सदा ॥  
 उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता-बहिन-सुता पहिचानो ।  
 सहें बान- वरषा बहु सूरे, टिकें न नैन-बान लखि कूरे ॥  
 कूरे तिया के अशुचि तन में, काम-रोगी रति करें ।  
 बहु मृतक सड़हिं मसान-माँहीं, काग ज्यों चोंचैं भरें ॥  
 संसार में विष-बेल नारी, तजि गये जोगीश्वरा ।  
 ‘द्यानत’ धरम दस पैँडि चढ़ि के, शिव-महल में पग धरा ॥  
 आं हीं श्री उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय अर्ध्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥१०॥

Śīla-bāra nau rākha, brahma-bhāva antara lakhō ।  
 Kari dōnōṁ abhilākha, karahu saphala nara-bhava sadā ॥  
 Uttama brahmacarya mana āno, mātā-bahina-sutā pahicāno ।  
 Sahēṁ bāna- varaśā bahu sūrē, ṭiṅna naina-bāna lakhi kūrē ॥  
 Kūrē tiyā kē aśuci tana mēṁ, kāma-rōgī rati karem ।  
 Bahu mṛtaka saṛahim masāna-māṁhīm,  
 kāga jyōṁ cōñcaim bharem ॥  
 Sansāra mēṁ viṣa-bēla nārī, taji gayē jōgīśvarā ।  
 ‘Dyānata’ dharama dasa painḍi caṛhi ke,  
 śiva-mahala mēṁ paga dharā ॥  
 Om hrīṁ śrī uttama brahmacharya dharmāṅgāya  
 arghyam nirvapāmīti svāhā ||10||

### जयमाला Jayamālā

(दोहा)

दसलच्छन वंदू सदा, मनवाँछित फलदाय । कहुँ आरती भारती, हम पर हो हुस हाय ॥

(dōhā)

Dasalacchana vandūm sadā, manavāṁchita phaladāya ।  
 Kahum āratī bhāratī, hama para hōhu sahāya ॥

(वेसरी छन्द)

उत्तम छिमा जहाँ मन होई, अंतर-बाहिर शत्रु न कोई | उत्तम मार्दव विनय प्रकासे, नाना भेदज्ञान सब भासे ||

(Vēsarī chanda)

Uttama chimā jahāṁ mana hōi, antara-bāhira śatru na kōi |  
Uttama mārdava vinaya prakāse, nānā bhēdajñāna saba bhāse ||

उत्तम आर्जव कपट मिटावे, दुर्गति त्यागि सुगति उपजावे | उत्तम सत्य वचन मुख बोले, सो प्रानी संसार न डोले ||

Uttama ārjava kapaṭa miṭāvē, durgati tyāgi sugati upajāve |  
Uttama satya vacana mukha bōlē, sō prānī sansāra na dōlē ||

उत्तम शौच लोभ-परिहारी, संतोषी गुण-रतन भंडारी | उत्तम संयम पाले ज्ञाता, नर-भवस फल करे ले साता ||

Uttama śauca lōbha-parihārī, santōṣī guṇa-ratana bhaṇḍārī |  
Uttama sanyama pālē jñātā, nara-bhava saphala karē lē sātā ||

उत्तम तप निरवाँछित पाले, सो नर करम-शत्रु कोटा ले | उत्तम त्याग करे जो कोई, भोगभूमि-सुर-शिवसुख होई ||

Uttama tapa niravāṁchita pālē, sō nara karama-śatru kō ṭālē |  
Uttama tyāga kare jō koi, bhōgabhūmi-sura-śivasukha hōi ||

उत्तम आकिंचन ब्रत धारे, परम समाधि-दशा विस्तारे | उत्तम ब्रह्मचर्य मन लावे, नर-सुर सहित मुक्ति-फल पावे ||

Uttama ākiñcana vrata dhāre, parama samādhi-daśā vistāre |  
Uttama brahmacarya mana lāvē,  
nara-sura sahita mukati-phala pāve ||

(दोहा)

करे करम की निरजरा, भव-पींजरा विनाशि | अजर-अमर पद को लहे, ‘द्यानत’ सुख की राशि ||

(Dōhā)

Karē karama kī nirajarā, bhava-pīñjarā vināśi |  
Ajara-amara pada kō lahe, ‘dyānata’ sukha kī rāsi ||

ओं हीं श्री उत्तमक्षमा-मार्दव-आर्जव-सत्य-शौच-संयम-तप-त्याग-  
आकिञ्चन्य ब्रह्मचर्येति दशलक्षणधर्माय जयमाला-पूर्णार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

Om hrīṁśrī uttamakṣamā-mārdava-ārjava-satya-śauca-sanyama-tapa-  
tyāga- ākiñcan'ya brahmacaryēti daśalakṣaṇadharmaṁ jayamālā-  
pūrnārghyam nirvapāmīti svāhā |

# सोलहकारण-भावनापूजा Sōlahakāraṇa-Bhāvanā Pūjā

कविश्री द्यानतराय Kaviśrī Dyānatarāya

(ज्ञान कवि की अर्ध्यावलि सहित) (jñāna kavi kī arghyaavalī sahitā)

सोलह-कारण भाय तीर्थकर जे भये| हरषे इन्द्र अपार मेरु पे ले गये ||

पूजा करि निज धन्य लख्यो बहु चाव सों | हमहू षोडश कारन भावें भाव सों ||

ओं हीं दर्शनविशुद्ध्यादि— षोडशकाणानि! अत्र अवतर! अवतर! संवैषट्! ( आह्वाननम्)

ओं हीं दर्शनविशुद्ध्यादि— षोडशकारणानि! अत्र तिष्ठ! तिष्ठ! ठः! ठः! ( स्थापनम्)

ओं हीं दर्शनविशुद्ध्यादि— षोडशकारणानि! अत्र मम सन्निहितो भव! भव! वषट्! ( सन्निधिकरणम्)

Sōlaha-Kāraṇa bhāya tīrthaṅkara jē bhayē |

Haraśē indra apāra mēru pai lē gayē ||

Pūjā kari nija dhan'ya lakhyo bahu cāva sōṁ |

Hamahū śoḍaśa kārana bhāvēṁ bhāva sōṁ ||

*Om hrīṁ darśanaviśud'dhyādi – śoḍaśakāraṇāni!*

*Atra avatara! Avatara ! Sanvauṣaṭ ! (Āhvānanam)*

*Om hrīṁ darśanaviśud'dhyādi – śoḍaśakāraṇāni!*

*Atra Tiṣṭha! Tiṣṭha! Tha !: Tha: ! (Sthāpanam)*

*Om hrīṁ darśanaviśud'dhyādi – śoḍaśakāraṇāni!*

*Atra mama sannihitō*

*Bhava ! Bhava ! Vaṣaṭ! (Sannidhikarāṇam)*

कंचन-झारी निरमलनीर, पूजौं जिनवर गुन-गंभीर | परमगुरु हो, जय-जय नाथ परमगुरु हो ||

दरशविशुद्धि-भावना भाय, सोलह तीर्थकर-पद-दाय | परमगुरु हो, जय-जय नाथ परम गुरुहो ||

ओं हीं दर्शनविशुद्धि-विनयसम्पन्नता-शीलत्रतेष्वन्तिचार-

अभीक्षणज्ञानोपयोग- संवेग-शक्तिस्त्याग-शक्तिस्तप-

साधुसमाधि-वैयाकृत्यकरण-अर्हद्भक्ति-आचार्यभक्ति-बहुश्रुतभक्ति-प्रवचनभक्ति आवश्यकापरिहाणि-

मार्गप्रभावना- प्रवचनवात्सल्यइतिषोडशकारणेभ्यः

जन्म-जरा-मृत्यु-विनाशनायजलंनिर्विपामीतिस्वाहा ।१।

Kañcana-jhārī niramala nīra,  
 pūjaum jinavara guna-gambhīra |  
 Paramaguru hō, jaya-jaya nātha paramaguru hō ||  
 Daraśaviśud'dhi-bhāvanā bhāya,  
 sōlaha tīrthaṅkara-pada-dāya |  
 Paramaguru hō, jaya-jaya nātha paramaguru hō ||

*Om hrīm darśanaviśud'dhi -vinayasampannatā-sīlavratē”  
 vanaticāra-abhīkṣṇajñānōpayōga- sanvēga-śaktitastyāga-  
 śaktitastapa- sādhusamādhi-vaiyāvṛtyakaraṇa-ar'  
 hadbhakti-ācāryabhakti-bahuśrutabharti-  
 pravacanabhakti āvaśyakāparihāṇi-  
 mārgaprabhāvanā- pravacanavātsalya iti  
 śōḍaśakāraṇēbhya: Janma-jarā-mṛtyu-vināśanāya  
 jalāṁ nirvapāmīti svāhā |1|*

चंदन घसौं कपूर मिलाय, पूजौं श्रीजिनवर के पाय | परमगुरु हो जय जय नाथ परमगुरु हो ||  
 दरशविशुद्धि-भावना भाय, सोलह तीर्थकर-पद-दाय | परमगुरु हो, जय-जय नाथ परमगुरु हो ||  
 ओं ह्रीं दर्शनविशुद्ध्यादिषोडशकारणेभ्यः संसारतापविनाशनाय चंदनं निर्वपामीति स्वाहा ।२।

Candana ghasaum kapūra milāya,  
 pūjaum śrījinavara kē pāya |  
 Paramaguru hō jaya jaya nātha paramaguru hō ||  
 Daraśaviśud'dhi-bhāvanā bhāya,  
 sōlaha tīrthaṅkara-pada-dāya |  
 Paramaguru hō, jaya-jaya nātha paramaguru hō ||  
*Om hrīm darśanaviśud'dhyādiśōḍaśakāraṇēbhya:  
 Sansāratāpavināśanāya candanāṁ nirvapāmīti svāhā |2|*

तंदुल धवल सुगंध अनूप पूजौं जिनवर तिहुँ-जग-भूप | परमगुरु हो जय-जय नाथ परमगुरु हो ||  
 दरशविशुद्धि-भावना भाय, सोलह तीर्थकर-पद-दाय | परमगुरु हो, जय-जय नाथ परमगुरु हो ||  
 ओं ह्रीं दर्शनविशुद्ध्यादिषोडशकारणेभ्यः अक्षयपद-प्राप्तये अक्षतान्निर्वपामीति स्वाहा ।३।

Tandula dhavala sugandha anūpa  
 pūjaum jinavara tihuṁ-jaga-bhūpa |  
 Paramaguru hō jaya-jaya nātha paramaguru hō ||  
 Daraśaviśud’dhi-bhāvanā bhāya,  
 sōlaha tīrthaṅkara-pada-dāya |  
 Paramaguru hō, jaya-jaya nātha paramaguru hō ||  
*Om hrīm darśanaviśud’dhyādiśōdaśakāraṇēbhya:  
 Akṣayapada-prāptayē akṣatān nirvapāmīti svāhā |3|*

फूल सुगन्ध मधुप-गुंजार, पूजौं जिनवर जग-आधार | परमगुरु हो जय-जय नाथ परमगुरु हो ||  
 दरशविशुद्धि-भावना भाय, सोलह तीर्थकर-पद-दाय | परमगुरु हो, जय-जय नाथ परमगुरु हो ||  
 ओं ह्रीं दर्शनविशुद्ध्यादिषोडशकारणेभ्यः कामबाण- विध्वंसनाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।४।

Phūla sugandha madhupa-guñjāra,  
 pūjaum jinavara jaga-ādhāra |  
 Paramaguru hō jaya-jaya nātha paramaguru hō ||  
 Daraśaviśud’dhi-bhāvanā bhāya,  
 sōlaha tīrthaṅkara-pada-dāya |  
 Paramaguru hō, jaya-jaya nātha paramaguru hō ||  
*Om hrīm darśanaviśud’dhyādiśōdaśakāraṇēbhya: Kāmabāṇa-  
 vidhvansanāya puṣpam nirvapāmīti svāhā |4|*

सद नेवज बहुविधि पकवान, पूजौं श्रीजिनवर गुणखान | परमगुरु हो जय-जय नाथ परमगुरु हो ||  
 दरशविशुद्धि-भावना भाय, सोलह तीर्थकर-पद-दाय | परमगुरु हो, जय-जय नाथ परमगुरु हो ||  
 ओं ह्रीं दर्शनविशुद्ध्यादिषोडशकारणेभ्यः क्षुधारोग-विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।५।

Sada nēvaja bahuvidhi pakavāna,  
 pūjaum śrījinavara guṇakhāna |  
 Paramaguru hō jaya-jaya nātha paramaguru hō ||  
 Daraśaviśud’dhi-bhāvanā bhāya,  
 sōlaha tīrthaṅkara-pada-dāya |  
 Paramaguru hō, jaya-jaya nātha paramaguru hō ||

*Om hrīm darśanaviśud'dhyādiśōdaśakāraṇēbhya: Kṣudharōga-vināśanāya naivēdyam nirvapāmīti svāhā |5|*

दीपक-ज्योति तिमिर छयकार पूजौं श्रीजिन केवलधार | परमगुरु हो जय-जय नाथ परमगुरु हो ||  
दरशविशुद्धि-भावना भाय, सोलह तीर्थकर-पद-दाय| परमगुरु हो, जय-जय नाथ परमगुरु हो ||  
ओं हीं दर्शनविशुद्ध्यादिषोडशकारणेभ्यः मोहांधकार-विनाशनाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।६।

Dīpaka-jyoti timira chayakāra  
pūjaum śrījina kēvaladhāra |  
Paramaguru hō jaya-jaya  
nātha paramaguru hō ||  
Daraśaviśud'dhi-bhāvanā bhāya,  
sōlaha tīrthaṅkara-pada-dāya |  
Paramaguru hō, jaya-jaya nātha paramaguru hō ||  
*Om hrīm darśanaviśud'dhyādiśōdaśakāraṇēbhya:  
Mōhāndhakāra-vināśanāya dīpam nirvapāmīti svāhā |6|*

अगर कपूर गंध शुभ खेय श्रीजिनवर आगे महकेय | परमगुरु हो जय-जय नाथ परमगुरु हो ||  
दरशविशुद्धि-भावनाभाय, सोलह तीर्थकर-पद-दाय |परमगुरु हो, जय-जय नाथ परमगुरु हो ||  
ओं हीं दर्शनविशुद्ध्यादिषोडशकारणेभ्यः अष्टकर्म-दहनाय धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।७।

Agara kapūra gandha śubha  
khēya śrījinavara āgē mahakēya |  
Paramaguru hō jaya-jaya nātha paramaguru hō ||  
Daraśaviśud'dhi-bhāvanā bhāya,  
sōlaha tīrthaṅkara-pada-dāya |  
Paramaguru hō, jaya-jaya nātha paramaguru hō ||  
*Om hrīm darśanaviśud'dhyādiśōdaśakāraṇēbhya:  
Aṣṭakarma-dahanāya dhūpam nirvapāmīti svāhā |7|*

श्रीफल आदि बहुत फलसार, पूजौं जिन वाँछित-दातार | परमगुरु हो जय-जय नाथ परमगुरु हो ||  
 दरशविशुद्धि-भावना भाय, सोलह तीर्थकर-पद-दाय | परमगुरु हो, जय-जय नाथ परमगुरु हो ||  
 ओं ह्रीं दर्शनविशुद्ध्यादिषोऽशकारणेभ्यः मोक्षफल-प्राप्तये फलं निर्वपामीति स्वाहा ।८।

Śrīphala ādi bahuta phalasāra,  
 pūjaum jina vāṁchita-dātāra |  
 Paramaguru hō jaya-jaya  
 nātha paramaguru hō ||  
 Daraśaviśud' dhi-bhāvanā bhāya,  
 sōlaha tīrthaṅkara-pada-dāya |  
 Paramaguru hō, jaya-jaya nātha paramaguru hō ||  
 Om hrīṁ darśanaviśud' dhyādiśoḍaśakāraṇēbhya:  
 Mōksaphala-prāptayē phalam nirvapāmīti svāhā |८|

जल-फल आठों दरब चढ़ाय, 'द्यानत' वरत करौं मन-लाय | परमगुरु हो जय-जय नाथ परमगुरु हो ||  
 दरशविशुद्धि-भावना भाय, सोलह तीर्थकर-पद-दाय | परमगुरु हो, जय-जय नाथ परमगुरु हो ||  
 ओं ह्रीं दर्शनविशुद्ध्यादिषोऽशकारणेभ्यः अनर्थपद-प्राप्तये अर्थं निर्वपामीति स्वाहा ।९।

Jala-phala āṭhōṁ daraba caṛhāya, 'dyānata'  
 varata karaum mana-lāya | Paramaguru hō jaya-jaya  
 nātha paramaguru hō ||  
 Daraśaviśud' dhi-bhāvanā bhāya,  
 sōlaha tīrthaṅkara-pada-dāya |  
 Paramaguru hō, jaya-jaya nātha paramaguru hō ||  
 Om hrīṁ darśanaviśud' dhyādiśoḍaśakāraṇēbhya:  
 Anarghyapada-prāptayē arghyam nirvapāmīti svāhā |९|

### प्रत्येक भावना के अर्थ्य (सवैया तेर्ईसा)

दर्शन शुद्ध न होवत जो लग, तो लग जीव मिथ्याती कहावे ।  
 काल अनंत फिरे भव में, महादुःखन को कहुँ पार न पावे ॥  
 दोष पचीस रहित गुण-अम्बुधि, सम्यग्दरशन शुद्ध ठारवे ।

‘ज्ञान’ कहे नर सोहि बड़ो, मिथ्यात्व तजे जिन-मारग ध्यावे।  
ओं हीं दर्शनविशुद्धि-भावनायै नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।१।

Pratyēka bhāvanā kē arghya (savaiyā tēr'isā)  
Darśana śud'dha na hōvata jō laga, tō  
laga jīva mithyātī kahāvē |  
Kāla ananta phirē bhava mēm, mahādu:  
Khana kō kahum̄ pāra na pāvē ||  
Dōṣa pacīsa rahita guṇa-ambudhi,  
samyagdaraśana śud'dha ḫharāvē |  
‘Jñāna’ kahē nara sōhi baṛō, mithyātva tajē  
jina-māraga dhyāvē ||  
*Om hrīṁ darśanaviśud'dhi-bhāvanāyai nama:  
Arghyam nirvapāmīti svāhā |1|*

देव तथा गुरुराय तथा, तप संयम शील व्रतादिक-धारी।  
पाप के हारक काम के छारक, शल्य-निवारक कर्म-निवारी ॥  
धर्म के धीर कषाय के भेदक, पंच प्रकार संसार के तारी।  
‘ज्ञान’ कहे विनयो सुखकारक, भाव धरो मन राखो विचारी ॥  
ओं हीं विनयसम्पन्नता-भावनायै नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।२।

Dēva tathā gururāya tathā,  
tapa sanyama śīla vratādika-dhārī |  
Pāpa kē hāraka kāma kē chāraka,  
śalya-nivāraka karma-nivārī ||  
Dharma kē dhīra kaṣāya kē bhēdaka,  
pañca prakāra sansāra kē tārī |  
‘Jñāna’ kahē vinayō sukhakāraka,  
bhāva dharō mana rākhō vicārī ||  
*Om hrīṁ vinayasampannatā-bhāvanāyai nama:  
Arghyam nirvapāmīti svāhā |2|*

शीलसदा-सुखकारक है, अतिचार-विवर्जित निर्मल कीजे ।  
 दानव-देव करें तसु सेव, विषानल भूत-पिशाच पतीजे ॥  
 शील बड़े जग में हथियार, जु शील को उपमा काहे की दीजे ।  
 ‘ज्ञान’ कहे नहिं शील बराबर, ताते सदा दृढ़-शील धरीजे ॥  
 ओं ह्रीं निरतिचार-शीलब्रत-भावनायै नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।३।

Śīla sadā-sukhakāraka hai,  
 aticāra-vivarjita nirmala kījē ।  
 Dānava-dēva karēm̄ tasu sēva,  
 viśānala bhūta-piśāca patījē ॥  
 Śīla barō jaga mēm̄ hathiyāra,  
 ju śīla kō upamā kāhē kī dījē ।  
 ‘Jñāna’ kahē nahim̄ śīla barābara,  
 tātēm̄ sadā dr̄̄ha-śīla dharījē ॥

*Om hrīṁ niraticāra-śīlavrata-bhāvanāyai nama:  
 Arghyam̄ nirvapāmīti svāhā |3|*

ज्ञान सदा जिनराज को भाषित, आलस-छोड़ पढ़े जो पढ़ावे ।  
 द्वादश-दोउ-अनेक हुँ भेद, सुनाम मती-श्रुति पंचम पावे ॥  
 चारहुँ भेद निरंतर भाषित, ज्ञान-अभीक्षण शुद्ध कहावे ।  
 ‘ज्ञान’ कहे श्रुत-भेद अनेक जु, लोकालोक हि प्रगट दिखावे ॥  
 ओं ह्रीं अभीक्षणज्ञानोपयोग-भावनायै नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।४।

Jñāna sadā jinarāja kō bhāṣita,  
 ālasa-chōṛa paṛhē jō paṛhāvē ।  
 Dvādaśa-dō'u-anēkahum̄ bhēda,  
 sunāma matī-śruti pañcama pāvē ॥  
 Cārahum̄ bhēda nirantara bhāṣita,  
 jñāna-abhīkṣaṇa śud'dha kahāvē ।  
 ‘Jñāna’ kahē śruta-bhēda anēka ju,  
 lōkālōka hi pragaṭa dikhāvē ॥

*Om hrīṁ abhīkṣṇajñānōpayōga-bhāvanāyai nama:  
 Arghyam̄ nirvapāmīti svāhā |4|*

भ्रात न तात न पुत्र कलत्र न, संगम दुर्जन ये सब खोटो ।  
 मंदिर सुन्दर काय सखा, सबको हमको इमि अंतर मोटो ॥  
 भाउ के भाव धरी मन भेदन, नाहिं संवेग पदारथ छोटो ।  
 ‘ज्ञान’ कहे शिव-साधन को जैसो, साह को काम करे जु बणोटो ॥  
 ओं ह्रीं संवेग-भावनायै नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।५।

Bhrāta na tāta na putra kalatra na,  
 saṅgama durjana yē saba khōṭō ।  
 Mandira sundara kāya sakhā,  
 sabakō hamakō imi a ntara mōṭō ॥  
 Bhā’u kē bhāva dharī mana bhēdana,  
 nāhim̄ sanvēga padāratha chōṭō ।  
 ‘Jñāna’ kahē śiva-sādhana kō jaisō,  
 sāha kō kāma karē ju baṇōṭō ॥  
 ‘Om hrīṁ sanvēga-bhāvanāyai nama:  
 Arghyam nirvapāmīti svāhā ।५।

पत्र- चतुर्विध देख अनूपम, दान-चतुर्विध भावसुं दीजे ।  
 शक्ति-समान अभ्यागत को, अति-आदर से प्रणिपत्य करीजे ॥  
 देवत जे नर दान सुपात्रहिं, तास अनेकहिं कारण सीझें ।  
 बोलत ‘ज्ञान’ देहि शुभ-दान जु, भोग-सुभूमि महासुख लीजे ॥  
 ओं ह्रीं शक्तिस्त्याग-भावनायै नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।६।

Pātra- catuvridha dēkha anūpama,  
 dāna- catuvridha bhāvasum dījē ।  
 Śakti-samāna abhyāgata kō,  
 ati-ādara sē pranipatya karījē ॥  
 Dēvata jē nara dāna supātrahim̄,  
 tāsa anēkahim̄ kāraṇa sījhēm̄ ।  
 Bōlata ‘jñāna’ dēhi śubha-dāna ju,  
 bhōga-subhūmi mahāsukha lījē ॥

*Om hrīm śaktitastyāga-bhāvanāyai nama:  
Arghyam nirvapāmīti svāhā |6|*

कर्म-कठोर गिरावन को निज, शक्ति-समान उपोषण कीजे ।  
बारह-भेद तपे तप सुन्दर, पाप जलांजलि काहे न दीजे ॥  
भाव धरी तप-घोर करी, नर-जन्म सदा फल काहे न लीजे ।  
'ज्ञान' कहे तप जे नर भावत, ताके अनेकहिं पातक छीजे ॥  
ओं हीं शक्तिस्तप-भावनायै नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।७।

**Karma-kathōra girāvana kō nija,**  
**śakti-samāna upoṣaṇa kījē ।**  
**Bāraha-bhēda tapē tapa sundara,**  
**pāpa jalāñjali kāhē na dījē ॥**  
**Bhāva dharī tapa-ghōra karī,**  
**nara-janma sadā phala kāhē na lījē ।**  
**'Jñāna' kahē tapa jē nara bhāvata,**  
**tākē anekahim pātaka chījē ॥**  
*‘Om hrīm śaktitastapa-bhāvanāyai nama:  
Arghyam nirvapāmīti svāhā |7|*

साधुसमाधि करो नर भावक, पुण्य बड़ो उपजे अघ छीजे ।  
साधु की संगति धर्म को कारण, भक्ति करे परमारथ सीजे ॥  
साधुसमाधि करे भव छूटत, कीर्ति-छटा त्रैलोक में गाजे ।  
'ज्ञान' कहे यह साधु बड़ो, गिरिश्रृंग-गुफा-बिच जाय विराजे ॥  
ओं हीं साधुसमाधि भावनायै नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।८।

**Sādhusamādhi karō nara bhāvaka,**  
**puṇya baṛō upajē agha chījē ।**  
**Sādhu kī saṅgati dharma kō kāraṇa,**  
**bhakti karē paramāratha sījē ॥**  
**Sādhusamādhi karē bhava chūṭata,**  
**kīrti-chaṭā trailōka mēṁ gājē ।**

‘Jñāna’ kahē yaha sādhu baṛō,  
 giriśrṅga-guphā-bica jāya virājē ||  
*Om hrīm sādhusamādhi- bhāvanāyē nama:*  
*Arghyam nirvapāmīti svāhā |8|*

कर्म के योग व्यथा-उदये, मुनिपुंगव कुन्त सुभेषज कीजे ।  
 पित्त-कफानिल साँस, भगंदर, ताप को शूल महागद छीजे ॥  
 भोजन-साथ बनाय के औषध, पथ्य-कुपथ्य-विचार के दीजे ।  
 ‘ज्ञान’ कहे नित ऐसी वैयावृत्य करे तस देव-पतीजे ॥  
 ओं ह्रीं वैयावृत्यकरण-भावनायै नमः अर्ध्यं निर्वपामीति स्वाहा ।९।

Karma kē yōga vyathā-udayē,  
 munipuṅgava kunta subhēṣaja kījē |  
 Pitta-kaphānila sāṁsa, bhagandara,  
 tāpa kō śūla mahāgada chījē ||  
 Bhōjana-sātha banāya kē auṣadha,  
 pathya-kupathyā-vicāra kē dījē |  
 ‘Jñāna’ kahē nita aisī vaiyyāvṛtya karē tasa dēva-patījē ||  
*Om hrīm vaiyyāvṛtyakaraṇa-bhāvanāyai nama:*  
*Arghyam nirvapāmīti svāhā |9|*

देव सदा अरिहंत भजो जई, दोष-अठारा किये अतिदूरा ।  
 पाप पखाल भये अतिनिर्मल, कर्म-कठोर किए चकचूरा ॥  
 दिव्य-अनंत-चतुष्टय शोभित, घोर मिथ्यान्ध-निवारण सूरा ।  
 ‘ज्ञान’ कहे जिनराज अराधो, निरंतर जे गुण-मंदिर पूरा ॥  
 ओं ह्रीं अर्हब्रक्षि-भावनायै नमः अर्ध्यं निर्वपामीति स्वाहा ।१०।

Dēva sadā arihanta bhajō ja’i, dōṣa  
 -aṭhārā kiyē atidūrā | Pāpa pakhāla bhayē  
 atinirmala, karma-kaṭhōra ki’ē cakacūrā ||  
 Divya-ananta-catu”ṭaya śōbhita, ghōra  
 mithyāndha-nivāraṇa sūrā |

‘Jñāna’ kahē jīnarāja arādhō,  
 nirantara jē guṇa-mandira pūrā ||  
 ‘Om hrīm ar’hadbhakti-bhāvanāyai nama:  
 Arghyam nirvapāmīti svāhā |10|

देवत ही उपदेश अनेक सु, आप सदा परमारथ-धारी ।  
 देश-विदेश विहार करें, दश-धर्म धरें भव-पार उतारी ॥  
 ऐसे अचारज भाव-धरी भज, सो शिव चाहत कर्म-निवारी ।  
 ‘ज्ञान’ कहे गुरु-भक्ति करो नर, देखत ही मनमाँहि विचारी ॥  
 ओं ह्रीं आचार्यभक्ति-भावनायै नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।११।

Dēvata hī upadēśa anēka su,  
 āpa sadā paramāratha-dhārī ।  
 Dēśa-vidēśa vihāra karēm, daśa-dharma  
 dharēm bhava-pāra utārī ॥  
 Aisē acāraja bhāva-dhārī bhaja,  
 sō śiva cāhata karma-nivārī ।  
 ‘Jñāna’ kahē guru-bhakti karō nara,  
 dēkhata hī manamāṁhi vicārī ॥  
 ‘Om hrīm ācāryabhakti-bhāvanāyai nama:  
 Arghyam nirvapāmīti svāhā |11|

आगम-छन्द-पुराण पढ़ावत, साहित तर्क-वितर्क बखाने ।  
 काव्य कथा नव नाटक पूजन, ज्योतिष वैद्यक शास्त्र प्रमाने ॥  
 ऐसे बहुश्रुत साधु मुनीश्वर, जो मन में दोउ भाव न आने ।  
 बोलत ‘ज्ञान’ धरी मन सान जु, भाग्य विशेषतें ज्ञानहि साने ॥  
 ओं ह्रीं बहुश्रुतभक्ति-भावनायैः नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।१२।

Āgama-chanda-purāṇa paṛhāvata,  
 sāhita tarka-vitarka bakhānē ।  
 Kāvya kathā nava nāṭaka pūjana,  
 jyotiṣa vaidyakaśāstra pramānē ॥

Aisē bahuśruta sādhu munīśvara,  
jō mana mēm dō'u bhāva na ānē |  
Bōlata 'jñāna' dharī mana sāna ju,  
bhāgya viśēṣataim jñānahi sānē ||  
'Om hrīṁ bahuśrutbhakti-bhāvanāyai: Nama:  
Arghyam nirvapāmīti svāhā |12|

द्वादश-अंग उपांग सदागम, ताकी निरंतर भक्ति करावे ।  
वेद अनूपम चार कहे तस, अर्थ भले मनमाँहि ठरा वे ॥  
पढ़ बहुभाव लिखो निज अक्षर, भक्ति करी बड़ि-पूज रचावे ।  
‘ज्ञान’ कहे जिन-आगम-भक्ति, करो सद्-बुद्धि बहुश्रुत पावे ॥  
ओं हर्णि प्रवचनभक्ति-भावनायै नमः अर्द्धं निर्वपामीति स्वाहा ।१३।

Dvādaśa-aṅga upāṅga sadāgama,  
tākī nirantara bhakti karāvē |  
Vēda anūpama cāra kahē tasa, artha  
bhalē manamāṁhi ṭharāvē ||  
Paṛha bahubhāva likhō nija akṣara,  
bhakti karī baṛi-pūja racāvē |  
‘Jñāna’ kahē jina-āgama-bhakti, karō  
sad-bud'dhi bahuśruta pāvē ||  
'Om hrīṁ pravacanabhakti-bhāvanāyai nama:  
Arghyam nirvapāmīti svāhā |13|

भाव धरे समता सब जीवसु, स्तोत्र पढ़े मुख से मनहारी ।  
कायोत्सर्ग करे मन प्रीतसु, वंदन देव-तणों भवतारी ॥  
ध्यान धरी मद दूर करी, दोउ-बेर करे पड़कम्मन भारी ।  
‘ज्ञान’ कहे मुनि सो धनवंत जु, दर्शन-ज्ञान-चरित्र-उघारी ॥  
ओं हर्णि आवश्यकापरिहाणि-भावनायै नमः अर्द्धं निर्वपामीति स्वाहा ।१४।

Bhāva dharē samatā saba jīvasu,  
stōtra paṛhē mukha sē manahārī |

Kāyōtsarga karē mana prītasu,  
 vandana dēva-taṇōṁ bhavatārī ||  
 Dhyāna dharī mada dūra karī,  
 dō'u-bēra karē paṇakam'mana bhārī |  
 'Jñāna' kahē muni sō dhanavanta ju,  
 darśana-jñāna-caritra-ughārī ||  
*'Om hrīṁ āvaśyakāparihāṇi-bhāvanāyai nama:  
 Arghyam nirvapāmīti svāhā |14|*

जिन-पूजा रचे परमारथसुं, जिन-आगे नृत्य-महोत्सव ठाने |  
 गाव तगी तबजावत ढोल, मृदंग के नाद सुधांग बखाने ||  
 संग प्रतिष्ठा रचे जल-जातरा, सद्गुरु को साहमो कर आने |  
 'ज्ञान' कहे जिन-मार्ग-प्रभावन, भाग्य-विशेषसु जानहिं जाने ||  
 ओं हीं मार्गप्रभावना-भावनायै नमः अर्द्धं निर्वपामीति स्वाहा ।१५।

Jina-pūjā rac paramārathasūṁ,  
 jiēna-āgē nr̄tya-mahōtsava ṭhāṇē |  
 Gāvata gīta bajāvata ḍhōla, mr̄daṅga  
 kē nāda sudhāṅga bakhāṇē ||  
 Saṅga pratiṣṭhā racē jala-jātarā,  
 sadguru kō sāhamō kara āṇē |  
 'Jñāna' kahē jina-mārga-prabhāvana,  
 bhāgya-viśēšasu jānahim jānē ||  
*'Om hrīṁ mārgaprabhāvanā-bhāvanāyai nama:  
 Arghyam nirvapāmīti svāhā |15|*

गौरव-भाव धरी मन से, मुनि-पुंगव को नित वत्सल कीजे |  
 शील के धारक भव्य के तारक, तासु निरंतर स्नेह धरीजे ||  
 धेनु यथा निज बालक को, अपने जिय छोड़ि न और पतीजे |  
 'ज्ञान' कहे भवि-लोक सुनो, जिन वत्सल-भाव धरे अघ छीजे ||  
 ओं हीं प्रवचन-वात्सल्य-भावनायै नमः अर्द्धं निर्वपामीति स्वाहा ।१६।

Gaurava-bhāva dharō mana sē,  
 muni-puṅgava kō nita vatsala kījē |  
 Śīla kē dhāraka bhavya kē tāraka,  
 tāsu nirantara snēha dharījē ||  
 Dhēnu yathā nijabālaka kō,  
 apanē jiya chōṛi na aura patījē |  
 ‘Jñāna’ kahē bhavi-lōka sunō, jina  
 vatsala-bhāva dharē agha chījē ||

*‘Om hrīṁ pravacana-vātsalya-bhāvanāyai nama:  
 Arghyam nirvapāmīti svāhā |16|*

(जाप्य मंत्र)

ओं ह्रीं दर्शनविशुद्ध्यै नमः, ओं ह्रीं विनयसम्पन्नतायै नमः, ओं ह्रीं शीलत्रताय नमः,  
 ओं ह्रीं अभीक्षणज्ञानोपयोगा यनमः, ओं ह्रीं संवेगाय नमः, ओं ह्रीं शक्तिस्त्यागाय नमः,  
 ओं ह्रीं शक्तिस्तप्ते नमः, ओं ह्रीं साधुसमाध्यै नमः, ओं ह्रीं वैयावृत्यकरणाय नमः,  
 ओं ह्रीं अर्हद्बक्त्यै नमः, ओं ह्रीं आचार्यभक्त्यै नमः, ओं ह्रीं बहुश्रुतभक्त्यै नमः,  
 ओं ह्रीं प्रवचनभक्त्यै नमः, ओं ह्रीं आवश्यकापरिहाण्यै नमः, ओं ह्रीं मार्गप्रभावनायै नमः,  
 ओं ह्रीं प्रवचनवात्सल्यै नमः।

(Jāpya mantra)

*‘om hrīṁ darśanaviśud’dhayai nama:, ‘  
 Om hrīṁ vinayasampannatāyai nama:,  
 ‘Om hrīṁ śīlavratāya nama:, ‘  
 Om hrīṁ abhīkṣṇajñānōpayōgāya nama:,  
 ‘Om hrīṁ sanvēgāya nama:,  
 ‘Om hrīṁ śaktitastyāgāya nama:,  
 ‘Om hrīṁ śaktitastapasē nama:,  
 ‘Om hrīṁ sādhusamādhyē nama:,  
 ‘Om hrīṁ vaiyāvṛtyakaraṇāya nama:,  
 ‘Om hrīṁ ar’hadbhaktyai nama:,  
 ‘Om hrīṁ ācāryabhaktyai nama:,  
 ‘Om hrīṁ bahuśrutabhaktyai nama:,*

‘Om hrīm pravacanabhaktyai nama:,  
 ‘Om hrīm āvaśyakāparihānyai nama:,  
 ‘Om hrīm mārgaprabhāvanāyai nama:,  
 ‘Om hrīm pravacanavātsalyai nama:-

जयमाला

Jayamālā

(दोहा)

षोडश-कारण गुण करे, हरे चतुर्गति-वास |  
 पाप-पुण्य सब नाशके, ज्ञान-भानु परकाश ||

(dōhā)

Sōdaśa -kāraṇa guṇa karē, harē caturgati-vāsa |  
 Pāpa-puñya saba nāśakē, jñāna-bhānu parakāśa ||

(चौपाई 16 मात्रा)

दरश-विशुद्धि ध रेजो कोई, ताको आवागमन न होई |  
 विनय महाधारे जो प्राणी, शिव-वनिता की सखी बखानी ||१||

(Caupār’i 16 mātrā)

Daraśa-viśud’ dhi dharē jō kō’i,  
 tākō āvāgamana na hō’i |  
 Vinaya mahā dhārē jō prāṇī,  
 śiva-vanitā kī sakħī bakhānī ||1||

शील सदा दृढ़ जो नर पाले, सो औरन की आपद टाले |  
 ज्ञानाभ्यास करे मनमाहीं, ताके मोह-महातम नाहीं ||२||

Śīla sadā dṛ̥ha jō nara pālē,  
 sō aurana kī āpada ṭālē |  
 Jñānābhyaśa karē manamāhīṁ,  
 tākē mōha-mahātama nāhīṁ ||2||

जो संवेग-भाव विस्तारे, सुरग-मुकति-पद आप निहारे ।  
दान देय मन हरष विशेषे, इहभव जस परभव सुख पेखे ॥३॥

Jō sanvēga-bhāva vistārē,  
suraga-mukati-pada āpa nihārē ।  
Dāna dēya mana haraśa viśēśē, iha  
bhava jasa parabhava sukha pēkhē ॥३॥

जो तप-तपे खपै अभिलाषा, चूरे करम-शिखर गुरु भाषा । सा  
धु-समाधि सदा मन लावै, तिहुँ जग भोग भोगि शिव जावे ॥४॥

Jō tapa-tapē khapai abhilāśā,  
cūrē karama-śikhara guru bhāśā ।  
Sādhu-samādhi sadā mana lāvai,  
tihuṁ jaga bhōga bhōgi śiva jāvē ॥४॥

निश-दिन वैयाकृत्य करैया, सो निहचै भव-नीर तिरैया ।  
जो अरहंत-भगति मन आने, सो जन विषय— कषाय न जाने ॥५॥

Niśa-dina vaiyāvṛtya karaiyā,  
sō nihacai bhava-nīra tiraiyā ।  
Jō arahanta-bhagati mana ānai,  
sō jana viśaya – kaṣāya na jānē ॥५॥

जो आचारज-भगति करे है, सो निर्मल आचार धरे है ।  
बहुश्रुतवंत-भगति जो करई, सो नर संपूर्न श्रुत धरई ॥६॥

Jō ācāraja-bhagati kare hai,  
sō nirmala ācāra dharē hai ।  
Bahuśrutavanta-bhagati jō karar’i,  
sō nara sampūrana śruta dharar’i ॥६॥

प्रवचन-भगति करे जो ज्ञाता, लहे ज्ञान परमानंद-दाता ।  
षट्-आवश्य काल जो साधे, सोही रत्न-त्रय आराधे ॥७॥

Pravacana-bhagati karē jō jñātā,  
lahē jñāna paramānanda-dātā ।  
Ṣaṭ-āvaśya kāla jō sādhai,  
sōhī ratna-traya ārādhai ॥७॥

धरम-प्रभाव करै जे ज्ञानी, तिन शिव-मारग रीति पिछानी ।  
वत्सल-अंग सदा जो ध्यावे, सो तीर्थकर-पदवी पावे ॥८॥

Dharama-prabhāva karaim jē jñānī,  
tina śiva-māraga rīti pichānī ।  
Vatsala-aṅga sadā jō dhyāvē,  
sō tīrthaṅkara-padavī pāvē ॥८॥

(दोहा)

एही सोलह-भावना, सहित धरे व्रत जोय ।  
देव-इन्द्र-नर-वंद्य-पद, ‘द्यानत’ शिव-पद होय ॥

(Dōhā)

Ehī sōlaha-bhāvanā,  
sahita dharē vrata jōya ।  
Dēva-indra-nara-vandya-pada,  
'dyānata' śiva-pada hōya ॥

ओं ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश कारणेभ्यः जयमाला-पूर्णार्घ्यनिर्वपामीति स्वाहा ।

*Om hrīṁ darśanaviśud'dhyādiśoḍasakāraṇēbhya:  
Jayamālā-pūrnārghyam nirvapāmīti svāhā ।*

(सवैया तेइसा)

सुन्दर षोडशकारण-भावना, निर्मल-चित्त-सुधारक धारे ।  
कर्म अनेक हने अतिदुर्धर, जन्म-जरा-भय मृत्यु निवारे ॥  
दुःख-दरिद्र-विपत्ति हरे, भवसागर को पर पार उतारे ।  
‘ज्ञान’ कहे यही षोडश कारण, कर्मनिवारण, सिद्धि सुधारे ॥

(Savaiyā tēr'isā)

Sundara ṣōḍaśakāraṇa-bhāvanā,  
nirmala-citta-sudhāraka dhārē ।  
Karma anēka hanē atidurd'dhara,  
janma-jarā-bhaya mṛtyu nivārē ॥  
Du:Kha-daridra-vipatti harē,  
bhavasāgara kō para pāra utārē ।  
'Jñāna' kahē yahī ṣōḍaśakāraṇa,  
karmanivāraṇa, sid'dha su dhārēm ॥

// इत्याशीर्वदः पुष्पांजलिंक्षिपेत् ॥  
|| Ityāśīrvāda: Puṣpāñjalim kṣipet ||

# श्रीपंचमेरु-पूजा Śrī Pañcamēru-Pūjā

कविश्री धानतराय Kaviśrī Dyānatarāya

(गीता छन्द)

तीर्थकरों के न्हवन-जल तें, भये तीरथ शर्मदा |  
ता तें प्रदच्छन देत सुर-गन, पंच-मेरुन की सदा ||  
दो-जलधि ढाई-द्वीप में, सब गनत-मूल विराजहीं |  
पूजूँ अस्सी-जिनधाम-प्रतिमा, होहि सुख दुःख भाजहीं ||  
ओं हीं श्रीपंचमेरुसम्बन्धिअस्सी जिन चैत्यालयस्थ जिन प्रतिमा समूह!  
अत्र अवतर! अवतर! संवौषट्! (आह्वाननम्)  
ओं हीं श्रीपंचमेरुसम्बन्धिअस्सी जिन चैत्यालयस्थ जिन प्रतिमा समूह!  
अत्र तिष्ठ! तिष्ठ! ठः! ठः! (स्थापनम्)  
ओं हीं श्री पंचमेरुसम्बन्धिअस्सी जिन चैत्यालयस्थ जिन प्रतिमा समूह!  
अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट्! (सन्निधिकरणम्)

(gītā chanda)

Tirthankarōm kē nhavana-jala tem, bhayē tiratha śarmadā |  
Tātēm pradacchana dēta sura-gana, pañca-mēruna kī sadā ||  
Dō-jaladhi ḍhā’i-dvīpa mēm, saba ganata-mūla virājahīm |  
Pūjoom assi-jinadhāma-pratimā, hōhi sukha duhkha bhājahīm ||  
*om hrīm śrīpañcamērusambandhi as’sī jina  
caityālayastha jina pratimā samūha!*  
Atra Avatara! Avatara! Sanvauṣat! (Āhvānanam)  
*om hrīm śrīpañcamērusambandhi as’sī  
jinacaityālayastha jina pratimā samūha!*  
Atra Tiṣṭha! Tiṣṭha! Ṭha!: Ṭha!: (Sthāpanam)  
*om hrīm śrīpañcamērusambandhi as’  
sī jinacaityālayastha jina pratimā samūha!*  
Atra mama sannihitō bhava bhava Vaṣat! (Sannidhikaranam)

(चौपाईआंचलीबद्ध)

शीतल मिष्ट सुवास मिलाय, जल सों पूजूं श्रीजिनराय | महासुख होय, देखे नाथ परमसुख होय ||  
पाँचों मेरु अस्सी जिनधाम, सब प्रतिमाजी को करुं प्रणाम | महासुख होय, देखे नाथ परमसुख होय ||  
ओं ह्रीं श्रीसुदर्शन-विजय-अचल-मंदर-विद्युन्मालि-पंचमेरुसम्बन्धि  
अस्सी जिन चैत्यालयस्थ जिन बिम्बेभ्यः  
जन्म-जरा-मृत्यु-विनाशनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा ।१।

(caupāi āñcalībad'dha)

Sītala miṣṭa suvāsa milāya, jala som pūjoom śrījinarāya |  
Mahāsukha hōya, dēkhē nātha paramasukha hōya ||  
Pāṁcōm mēru assi jinadhāma,  
saba pratimājī kō karoom praṇāma |  
Mahāsukha hōya, dēkhē nātha paramasukha hōya ||  
*Om hrīm śrīsudarśana-vijaya-acala-mandara-vidyunmāli-  
pañcamērusambandhi assi jina caityālayastha jinabimbēbhya:  
Janma-jarā-mṛtyu-vināśanāya jalam nirvapāmīti svāhā |*

जल केशर करपूर मिलाय, गंध सों पूजूं श्रीजिनराय | महासुख होय, देखे नाथ परमसुख होय ||  
पाँचों मेरु अस्सी जिनधाम, सब प्रतिमाजी को करुं प्रणाम | महासुख होय, देखे नाथ परमसुख होय ||  
ओं ह्रीं श्रीपंचमेरुसम्बन्धिअस्सी जिनचैत्यालयस्थ जिनबिम्बेभ्यः  
संसार ताप-विनाशनाय चंदनं निर्वपामीति स्वाहा ।२।

Jala kēśara karapūra milāya, gandha som pūjom śrījinarāya |  
Mahāsukha hōya, dēkhē nātha paramasukha hōya ||  
Pāṁcōm mēru assi jinadhāma,  
saba pratimājī kō karoon praṇāma |  
Mahāsukha hōya, dēkhē nātha paramasukha hōya ||  
*Om hrīm śrīpañcamērusambandhi assi  
jinacaityālayastha-jinabimbēbhya:  
Sansāratāpa-vināśanāya candanam nirvapāmīti svāhā |*२

अमल अखंड सुगंध सुहाय, अच्छत सों पूजूं जिनराय | महासुख होय, देखे नाथ परमसुख होय||  
 पाँचों मेरु अस्सी जिनधाम, सब प्रतिमाजी को करूं प्रणाम | महासुख होय, देखे नाथ परमसुख होय ||  
 ओं ह्रीं श्रीपंचमेरुसम्बन्धिअस्सी जिन चैत्यालयस्थ-जिनबिम्बेभ्यः:  
 अक्षय पद-प्राप्तये अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा ।३।

Amala akhanda sugandha suhāya, acchata som pūjom jinarāya |  
 Mahāsukha hōya, dēkhē nātha paramasukha hōya ||  
 Pāṁcōm mēru assi jinadhāma, saba pratimājī kō karoon pranāma |  
 Mahāsukha hōya, dēkhē nātha paramasukha hōya ||  
*Om hrīm śrīpañcamērusambandhi assi  
 jinacaityālayastha jinabimbēbhya:  
 Aksayapada-prāptayē aksatān nirvapāmīti svāhā |3|*

वरन अनेक रहे महकाय, फूल सों पूजूं श्रीजिनराय | महासुख होय, देखे नाथ परमसुख होय ||  
 पाँचों मेरु अस्सी जिनधाम, सब प्रतिमाजी को करूं प्रणाम | महासुख होय, देखे नाथ परमसुख होय ||  
 ओं ह्रीं श्रीपंचमेरुसम्बन्धिअस्सी जिन चैत्यालयस्थ-जिनबिम्बेभ्यः:  
 कामबाण-विध्वंसनाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।४।

Varana anēka rahē mahakāya, phūla som pūjom śrījinarāya |  
 Mahāsukha hōya, dēkhē nātha paramasukha hōya ||  
 Pāṁcōm mēru assi jinadhāma, saba pratimājī kō karoon pranāma |  
 Mahāsukha hōya, dēkhē nātha paramasukha hōya ||  
*Om hrīm śrīpañcamērusambandhi  
 assi-jinacaityālayastha-jinabimbēbhya: Kāmabāṇa-  
 vidhvansanāya puṣpam nirvapāmīti svāhā |4|*

मन वाँछित बहु तुरत बनाय, चरु सों पूजूं श्रीजिनराय | महासुख होय, देखे नाथ परमसुख होय ||  
 पाँचों मेरु अस्सी जिनधाम, सब प्रतिमाजी को करूं प्रणाम | महासुख होय, देखे नाथ परमसुख होय ||  
 ओं ह्रीं श्रीपंचमेरुसम्बन्धिअस्सी जिनचैत्यालयस्थ-जिनबिम्बेभ्यः:  
 क्षुधारोग- विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।५।

Manavāṁchita bahu turata banāya, caru som pūjom śrījinarāya |  
 Mahāsukha hōya, dēkhē nātha paramasukha hōya ||  
 Pāṁcōm mēru assi jinadhāma, saba pratimājī kō karoon praṇāma |  
 Mahāsukha hōya, dēkhē nātha paramasukha hōya ||  
*Om hrīṁ śrīpañcamērusambandhi assi  
jinacaityālayastha-jinabimbēbhya:  
Kṣudharōga- vināśanāya naivēdyam nirvapāmīti svāhā |5|*

तम-हर उज्ज्वल-ज्योति जगाय, दीप सों पूजूं श्रीजिनराय | महासुख होय, देखे नाथ परमसुख होय ||  
 पाँचों मेरु अस्सी जिनधाम, सब प्रतिमाजी को करूँ प्रणाम | महासुख होय, देखे नाथ परमसुख होय ||  
 ओं ह्रीं श्रीपंचमेरुसम्बन्धिअस्सी जिन चैत्यालयस्थ-जिनबिम्बेभ्यः  
 मोहांधकार-विनाशनाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।६।

Tama-hara ujjvala-jyōti jagāya, dīpa som pūjom śrījinarāya |  
 Mahāsukha hōya, dēkhē nātha paramasukha hōya ||  
 Pāṁcōm mēru assi jinadhāma, saba pratimājī kō karoon praṇāma |  
 Mahāsukha hōya, dēkhē nātha paramasukha hōya ||  
*Om hrīṁ śrīpañcamērusambandhi  
assi jina caityālayastha-jinabimbēbhya:  
Mōhāndhkāra-vināśanāya dīpam nirvapāmīti svāhā |6|*

खेऊँ अगर अमल अधिकाय, धूप सों पूजूं श्रीजिनराय | महासुख होय, देखे नाथ परमसुख होय ||  
 पाँचों मेरु अस्सी जिनधाम, सब प्रतिमाजी को करूँ प्रणाम | महासुख होय, देखे नाथ परमसुख होय ||  
 ओं ह्रीं श्रीपंचमेरुसम्बन्धिअस्सी जिनचैत्यालयस्थ-जिनबिम्बेभ्यः  
 अष्टकर्म-दहनाय धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।७।

Khē'ūṁ agara amala adhikāya, dhūpa som pūjom śrījinarāya |  
 Mahāsukha hōya, dēkhē nātha paramasukha hōya ||  
 Pāṁcōm mēru assi jinadhāma, saba pratimājī kō karoon praṇāma |  
 Mahāsukha hōya, dēkhē nātha paramasukha hōya ||

‘Om hrīm śrīpañcamērusambandhi  
 assi jinacaityālayastha-jinabimbēbhya:  
 Aṣṭakarma-dahanāya dhūpam nirvapāmīti svāhā |7|

सुरस सुवर्ण सुगंध सुभाय, फल सों पूजूं श्रीजिनराय | महासुख होय, देखे नाथ परमसुख होय ||  
 पाँचों मेरु अस्सी जिनधाम, सब प्रतिमाजी को करूँ प्रणाम | महासुख होय, देखे नाथ परमसुख होय ||  
 ओं ह्रीं श्रीपंचमेरुसम्बन्धिअस्सी जिन चैत्यालयस्थ-जिनबिम्बेभ्यः  
 मोक्षफल-प्राप्तये फलं निर्वपामीति स्वाहा ।८।

Surasa suvarṇa sugandha subhāya, phala som pūjoom śrījinarāya |  
 Mahāsukha hōya, dēkhē nātha paramasukha hōya ||  
 Pāṁcōm mēru assi jinadhāma, saba pratimājī kō karoon praṇāma |  
 Mahāsukha hōya, dēkhē nātha paramasukha hōya ||

‘Om hrīm śrīpañcamērusambandhi  
 assi jinacaityālayastha-jinabimbēbhya:  
 Mōkṣaphala-prāptayē phalam nirvapāmīti svāhā |8|

आठ दरबमय अरघ बनाय, ‘द्यानत’ पूजूं श्रीजिनराय | महासुख होय, देखे नाथ परमसुख होय ||  
 पाँचों मेरु अस्सी जिनधाम, सब प्रतिमाजी को करूँ प्रणाम | महासुख होय, देखे नाथ परमसुख होय ||  
 ओं ह्रीं श्रीपंचमेरुसम्बन्धिअस्सी जिनचैत्यालयस्थ-जिनबिम्बेभ्यः  
 अनर्द्ध्य पद-प्राप्तये अर्द्ध्यं निर्वपामीति स्वाहा ।९।

Āṭha darabamaya aragha banāya, ‘dyānata’ pūjoom śrījinarāya |  
 Mahāsukha hōya, dēkhē nātha paramasukha hōya ||  
 Pāṁcōm mēru assi jinadhāma, saba pratimājī kō karoon praṇāma |  
 Mahāsukha hōya, dēkhē nātha paramasukha hōya ||

‘Om hrīm śrīpañcamērusambandhi  
 assi jinacaityālayastha-jinabimbēbhya:  
 Anarghyapada-prāptayē arghyam nirvapāmīti svāhā |9|

## जयमाला Jayamālā

(सोरथा छन्द)

प्रथम सुदर्शन-स्वामि, विजय अचल मंदर कहा ।  
विद्युन्माली नामि, पंचमेरु जग में प्रगट ॥

(sōrathā chanda)

Prathama sudarśana-svāmi, vijaya acala mandara kahā ।  
Vidyunmālī nāmi, pañcamēru jaga mēm pragaṭa ॥

(केसरी छन्द)

प्रथम सुदर्शन मेरु विराजे, भद्रशाल वन भू पर छाजे ।  
चैत्यालय चारों सुखकारी, मन वच तन वंदना हमारी ॥१॥

(Kēsarī chanda)

Prathama sudarśana mēru virājē,  
bhadraśāla vana bhū para chājē ।  
Caityālaya cārōṁ sukhakārī,  
mana vaca tana vandanā hamārī ॥१॥

ऊपर पंच-शतक पर सोहे, नंदन-वन देखत मन मोहे ।  
चैत्यालय चारों सुखकारी, मन वच तन वंदना हमारी ॥२॥

Ūpara pañca-śataka para sōhē,  
nandana-vana dēkhata mana mōhē ।  
Caityālaya cārōṁ sukhakārī,  
mana vaca tana vandanā hamārī ॥२॥

साढ़े बांसठ सहस ऊँचाई, वन-सुमनस शोभे अधिकाई ।  
चैत्यालय चारों सुखकारी, मन वच तन वंदना हमारी ॥३॥

Sāṛhē bānsaṭha sahasa ūṁcāī,  
vana-sumanaṣa śōbhē adhikāī |  
Caityālaya cārōṁ sukhakārī,  
mana vaca tana vandanā hamārī ||3||

ॐ च जोजन सहस-छतीसं, पांडुक-वन सोहे गिरि-सीसं |  
चैत्यालय चारों सुखकारी, मन वच तन वंदना हमारी ||४॥

Ūṁcā jōjana sahasa-chatīsam,  
pāṇḍuka-vana sōhē giri-sīsam |  
Caityālaya cārōṁ sukhakārī,  
mana vaca tana vandanā hamārī ||4||

चारों मेरु समान बखाने, भू पर भद्रशाल चहुँ जाने |  
चैत्यालय सोलह सुखकारी, मन वच तन वंदना हमारी ||५॥

Cārōṁ mēru samāna bakhānē,  
bhū para bhadraśāla cahum̄ jānē |  
Caityālaya sōlaha sukhakārī, mana vaca tana vandanā hamārī ||5||

ॐ च पाँच शतक पर भाखे, चारों नंदनवन अभिलाखे |  
चैत्यालय सोलह सुखकारी, मन वच तन वंदना हमारी ||६॥

Ūṁcē pāṁca śataka para bhākhē,  
cārōṁ nandanavana abhilākhē |  
Caityālaya sōlaha sukhakārī, mana vaca tana vandanā hamārī ||6||

साढे पचपन सहस उतंगा, वन-सोमनस चार बहुरंगा |  
चैत्यालय सोलह सुखकारी, मन वच तन वंदना हमारी ||७॥

Sāṛhē pacapana sahasa utaṅgā,  
vana-sōmanasa cāra bahuraṅgā |  
Caityālaya sōlaha sukhakārī,  
mana vaca tana vandanā hamārī ||7||

उच्च अठाइस सहस्र बताये, पांडुक चारों वन शुभ गाये |  
चैत्यालय सोलह सुखकारी, मन वच तन वंदना हमारी ||८॥

Ucca athā'isa sahasa batāyē,  
pāṇḍuka cārōm vana śubha gāyē |  
Caityālaya sōlaha sukhakārī,  
mana vaca tana vandanā hamārī ||8||

सुर नर चारन वंदन आवें, सो शोभा हम किह मुख गावें |  
चैत्यालय अस्सी सुखकारी, मन वच तन वंदना हमारी ||९॥

Sura nara cārana vandana āvem̄,  
sō śōbhā hama kiha mukha gāvem̄ |  
Caityālaya as'sī sukhakārī, mana vaca tana vandanā hamārī ||9||

(दोहा)

पंच-मेरु की आरती, पढ़े सुने जो कोय |  
'द्यानत' फल जाने प्रभू, तुरत महासुख होय ||

(Dōhā)

Pañca-mēru kī āratī, paṛhē sune jō kōya |  
'Dyānata' phala jāne prabhū, turata mahāsukha hōya ||

ओं ह्रीं श्रीपंचमेरुसम्बन्धि जिन चैत्यालयस्थ जिनबिन्देभ्यः

जयमाला-पूण्डिर्य निर्वपामीति स्वाहा ।

*Om hrīṁ śrīpañcamērusambandhi assi jina  
caityālayastha jinabimbēbhya:  
Jayamālā-pūrnārghyam nirvapāmīti svāhā |*

॥इत्याशीर्वदः पुष्पांजलिंक्षिपेत्॥

|| *Ityāśīrvāda: Puṣpāñjalim kṣipet* ||

# श्रीनंदीश्वर-द्वीप-पूजा Śrī Nandīśvara-Dvīpa-Pūjā

कविश्री द्यानतराय Kaviśrī Dyānatarāya

(आडिल्ल छन्द)

सरब-परव में बड़ो अठाई परव है | नंदीश्वर सुर जाहिं लेय वसु दरब है ||

हमें सकति सो नाहिं इहाँ करि थापना | पूजे जिनगृह-प्रतिमा है हित आपना ||

ओं ह्रीं श्रीनंदीश्वरद्वीपे पूर्व-दक्षिण-पश्चिम-उत्तरदिक्षुविद्यमान द्विपंचाशज्जिनालयस्थ जिनप्रतिमासमूह!

अत्र अवतर अवतर संवौषट्! (आह्वाननम्)

ओं ह्रीं श्रीनंदीश्वरद्वीपे पूर्व-दक्षिण-पश्चिम-उत्तरदिक्षुविद्यमान द्विपंचाशज्जिनालयस्थ जिनप्रतिमासमूह!

अत्र तिष्ठ तिष्ठठः ठः! (स्थापनम्)

ओं ह्रीं श्रीनंदीश्वरद्वीपे पूर्व-दक्षिण-पश्चिम-उत्तरदिक्षुविद्यमान द्विपंचाशज्जिनालयस्थ जिनप्रतिमासमूह!

अत्र मम सत्रिहितो भव भव वषट्! (सत्रिधिकरणम्)

(āḍilla chanda)

Saraba-parava mēm barō athār’i parava hai |

Nandīśvara sura jāhim lēya vasu daraba hai ||

Hamēm sakati sō nāhim ihāṁ kari thāpanā |

Pūjem jinagṛha-pratimā hai hita āpanā ||

*Om hrīṁ śrīnandīśvaradvīpē pūrva-dakṣiṇa-paścima-  
uttaradikṣuvidyamāna dvipañcāśajjinālayastha  
jinapratimāsamūha!*

*Atra avatara avatara sanvauṣṭ! (āhvānanam)*

*Om hrīṁ śrīnandīśvaradvīpē pūrva-dakṣiṇa-paścima-  
uttaradikṣuvidyamāna dvipañcāśajjinālayastha  
jinapratimāsamūha!*

*Atrā tiṣṭha tiṣṭha tha: tha!:! (Sthāpanam)*

*Om hrīṁ śrīnandīśvaradvīpē pūrva-dakṣiṇa-paścima-  
uttaradikṣuvidyamāna*

*dvipañcāśajjinālayastha jinapratimāsamūha!*

*Atrā mama satrīhitō bhava bhava vaṣṭ! (satridhikaranam)*

कंचन मणि मय भृंगार, तीरथ नीर भरा | तिहुँ धार दई निरवार, जामन मरन जरा ||  
 नंदीश्वर श्रीजिन धाम, बावन पूज करूं | वसु दिन प्रतिमा अभिराम, आनंद भाव धरूं ||  
 ओं ह्रीं श्रीनंदीश्वरद्वीपे पूर्व-दक्षिण-पश्चिम-उत्तरदिक्षु द्विपंचाशज्जिनालयस्थ जिनप्रतिमाभ्यः:  
 जन्म-जरा-मृत्यु-विनाशनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा। १।

Kañcana maṇi maya bhṛṅgāra, tīratha nīra bharā |  
 Tihum̄ dhāra dai nirvāra, jāmana marana jarā ||  
 Nandīśvara śrījina dhāma, bāvana pūja karum̄ |  
 Vasu dina pratimā abhirāma, ānanda bhāva dharum̄ ||  
*Om hrīṁ śrīnandīśvaradvīpē pūrva-dakṣiṇa-paścima-uttaradikṣu  
 dvipañcāśajjinālayastha jinapratimābhya:*  
*Janma-jarā-mṛtyu-vināśanāya jalam̄ nirvapāmīti svāhā | 1|*

भव तप हर शीतल वाच, जो चंदन नाहीं | प्रभु यह गुन कीजै साँच, आयो तुम ठाहीं ||  
 नंदीश्वर श्रीजिन धाम, बावन पूज करूं | वसु दिन प्रतिमा अभिराम, आनंद भाव धरूं ||  
 ओं ह्रीं श्रीनंदीश्वरद्वीपे पूर्व-दक्षिण-पश्चिम-उत्तरदिक्षु द्विपंचाशज्जिनालयस्थ जिनप्रतिमाभ्यः:  
 भवताप-विनाशनाय चंदनं निर्वपामीति स्वाहा ।२।

Bhava tapa hara sītala vāch, jō candana nāhīṁ |  
 Prabhu yaha guna kījai sāṁca, āyō tuma ṭhāhīṁ ||  
 Nandīśvara śrījina dhāma, bāvana pūja karum̄ |  
 Vasu dina pratimā abhirāma, ānanda bhāva dharum̄ ||  
*Om hrīṁ śrīnandīśvaradvīpē pūrva-dakṣiṇa-paścima-uttaradikṣu  
 dvipañcāśajjinālayastha jinapratimābhya:*  
*Bhavatāpa-vināśanāya candanam̄ nirvapāmīti svāhā | 2|*

उत्तम-अक्षत जिनराज, पुंज धरे सोहे | सब जीते अक्ष समाज, तुम सम अरु को है ||  
 नंदीश्वर श्रीजिन धाम, बावन पूज करूं | वसु दिन प्रतिमा अभिराम, आनंद भाव धरूं ||  
 ओं ह्रीं श्रीनंदीश्वरद्वीपे पूर्व-दक्षिण-पश्चिम-उत्तरदिक्षु द्विपंचाशज्जिनालयस्थ जिनप्रतिमाभ्यः:  
 अक्षयपद-प्राप्तये अक्षतान्निर्वपामीति स्वाहा ।३।

Uttama-akṣata jinarāja, puñja dharē sōhē |  
 Saba jītē akṣa samāja, tuma sama aru kō hai ||  
 Nandīśvara śrījina dhāma, bāvana pūja karum |  
 Vasu dina pratimā abhirāma, ānanda bhāva dharum ||  
*Om hrīm śrīnandīśvaradvīpē pūrva-dakṣiṇa-paścima-uttaradikṣu  
dvipañcāśajjinālayastha jinapratimābhya:  
Akṣayapada-prāptayē akṣatān nirvapāmīti svāhā |3|*

तुम कामविनाशक देव, ध्याऊँ फूलन सों | लहुँ शील लच्छमी एव, छूटूं सूलन सों ||  
 नंदीश्वर श्रीजिन धाम, बावन पूज करूं | वसु दिन प्रतिमा अभिराम, आनंद भाव धरूं ||  
 ओं हीं श्रीनंदीश्वरद्वीपे पूर्व-दक्षिण-पश्चिम-उत्तरदिक्षु द्विपंचाशज्जिनालयस्थ जिनप्रतिमाभ्यः  
 कामबाण-विध्वंसनाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।४।

Tuma kāmavināśaka dēva, dhyā'ūm̄ phūlana sōm |  
 Lahum̄ śīla lacchamī ēva, chūṭum̄ sūlana sōm ||  
 Nandīśvara śrījina dhāma, bāvana pūja karum |  
 Vasu dina pratimā abhirāma, ānanda bhāva dharum ||  
*Om hrīm śrīnandīśvaradvīpē pūrva-dakṣiṇa-paścima-uttaradikṣu  
dvipañcāśajjinālayastha jinapratimābhya:  
Kāmabāṇa-vidhvansanāya puṣpam nirvapāmīti svāhā |4|*

नेवज इंद्रिय-बलकार, सो तुमने चूरा | चरु तुम ढिंग सोहे सार, अचरज है पूरा ||  
 नंदीश्वर श्रीजिन धाम, बावन पूज करूं | वसु दिन प्रतिमा अभिराम, आनंद भाव धरूं ||  
 ओं हीं श्रीनंदीश्वरद्वीपे पूर्व-दक्षिण-पश्चिम-उत्तरदिक्षु द्विपंचाशज्जिनालयस्थ जिनप्रतिमाभ्यः  
 क्षुधारोग-विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।५।

Nēvaja indriya-balakāra, sō tumanē cūrā |  
 Caru tuma ḍhiṅga sōhe sāra, acaraja hai pūrā ||  
 Nandīśvara śrījina dhāma, bāvana pūja karum |  
 Vasu dina pratimā abhirāma, ānanda bhāva dharum ||  
*Om hrīm śrīnandīśvaradvīpē pūrva-dakṣiṇa-paścima-uttaradikṣu  
dvipañcāśajjinālayastha jinapratimābhya:  
Kṣudharōga-vināśanāya naivēdyam nirvapāmīti svāhā |5|*

दीपक की ज्योति प्रकाश, तुम तन माहिं लसे | टूटे करमन की राश, ज्ञान कणी दरसे ||  
 नंदीश्वर श्रीजिन धाम, बावन पूज करूं | वसु दिन प्रतिमा अभिराम, आनंद भाव धरूं ||  
 ओं ह्रीं श्रीनंदीश्वरद्वीपे पूर्व-दक्षिण-पश्चिम-उत्तरदिक्षु द्विपंचाशज्जिनालयस्थ जिनप्रतिमाभ्यः  
 मोहान्धकार-विनाशनाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।६।

Dīpaka kī jyōti prakāśa, tuma tana māhim lase |  
 Tūṭē karamana kī rāśa, jñāna kaṇī darase ||  
 Nandīśvara śrījina dhāma, bāvana pūja karum |  
 Vasu dina pratimā abhirāma, ānanda bhāva dharum ||  
*Om hrīṁ śrīnandīśvaradvīpē pūrva-dakṣiṇa-paścima-uttaradikṣu  
 dvipañcāśajjinālayastha jinapratimābhya:  
 Mōhāndhkāra-vināśanāya dīpam nirvapāmīti svāhā ।६।*

कृष्णागरु धूप सुवास, दश दिशि नारि वरें | अति हरष भाव परकाश, मानों नृत्य करें ||  
 नंदीश्वर श्रीजिन धाम, बावन पूज करूं | वसु दिन प्रतिमा अभिराम, आनंद भाव धरूं ||  
 ओं ह्रीं श्रीनंदीश्वरद्वीपे पूर्व-दक्षिण-पश्चिम-उत्तरदिक्षु द्विपंचाशज्जिनालयस्थ जिनप्रतिमाभ्यः  
 अष्टकर्म-दहनाय धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।७।

Kṛṣṇāgaru dhūpa suvāsa, daśa diśi nāri vareṁ |  
 Ati haraśa bhāva parakāśa, mānōṁ nr̥tya kareṁ ||  
 Nandīśvara śrījina dhāma, bāvana pūja karum |  
 Vasu dina pratimā abhirāma, ānanda bhāva dharum ||  
*Om hrīṁ śrīnandīśvaradvīpē pūrva-dakṣiṇa-paścima-uttaradikṣu  
 dvipañcāśajjinālayastha jinapratimābhya:  
 Aṣṭakarma-dahanāya dhūpam nirvapāmīti svāhā ।७।*

बहुविधि फल ले तिहुँ काल, आनंद राचत हैं | तुम शिव फल देहु दयाल, तुहि हम जाचत हैं ||  
 नंदीश्वर श्रीजिन धाम, बावन पूज करूं | वसु दिन प्रतिमा अभिराम, आनंद भाव धरूं ||  
 ओं ह्रीं श्रीनंदीश्वरद्वीपे पूर्व-दक्षिण-पश्चिम-उत्तरदिक्षु द्विपंचाशज्जिनालयस्थ जिनप्रतिमाभ्यः  
 मोक्षफल-प्राप्तये फलं निर्वपामीति स्वाहा ।८।

Bahuvidhi phala lē tihuṁ kāla, ānanda rācata haim |  
Tuma śiva phala dēhu dayāla, tuhi hama jācata haim ||

Nandīśvara śrījina dhāma, bāvana pūja karum |  
Vasu dina pratimā abhirāma, ānanda bhāva dharum ||

*Om hrīm śrīnandīśvaradvīpē pūrva-dakṣiṇa-paścima-uttaradikṣu  
dvipañcāśajjinālayastha jinapratimābhya:  
Mōksaphala-prāptayē phalam nirvapāmīti svāhā |8|*

यह अरघ कियो निज हेत, तुमको अरपतु हूँ | ‘द्यानत’ कीज्यो शिव खेत भूमि समरपतु हूँ||

नंदीश्वर श्रीजिन धाम, बावन पूज करूँ | वसु दिन प्रतिमा अभिराम, आनंद भाव धरूँ ||

ओं ह्रीं श्रीनंदीश्वरद्वीपे पूर्व-दक्षिण-पश्चिम-उत्तरदिक्षु द्विपंचाशज्जनालयस्थ जिनप्रतिमाभ्यः  
अनर्घ्यपद-प्राप्तये अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा ।९।

Yaha aragha kiyō nija hēta, tumakō arapatu hum |  
'Dyānata' kījyō śiva khēta bhūmi samarapatu hum ||

Nandīśvara śrījina dhāma, bāvana pūja karum |  
Vasu dina pratimā abhirāma, ānanda bhāva dharum ||

*Om hrīm śrīnandīśvaradvīpē pūrva-dakṣiṇa-paścima-uttaradikṣu  
dvipañcāśajjinālayastha jinapratimābhya: Anarghyapada-prāptayē  
arghyam nirvapāmīti svāhā |9|*

## जयमाला Jayamālā

(दोहा)

कार्तिक फागुन साढ़ के, अंत-आठ-दिन माँहिं | नंदीश्वर सुर जात हैं, हम पूजे इह ठाहिं ||१||

(dōhā)

Kārtika phāguna sāṛha kē, anta-āṭha-dina māṁhim |  
Nandīśvara sura jāta haim, hama pūjem iha ṭhāhim ||1||

(लक्ष्मी छंद)

एक सौ त्रेसठ कोडि जोजन महा | लाख चौरासिया एक-दिश में लहा ||  
आठमों द्वीप नंदीश्वरं भास्वरं | भौन-बावन प्रतिमा नमूं सुखकरं ||२||

(Lakṣmī chanda)

Eka sau trēsaṭha kōḍi jōjana mahā |  
Lākha caurāsiyā ēka-diśa mēṁ lahā ||  
Āṭhamōṁ dvīpa nandīśvaram bhāsvaram |  
Bhauna-bāvanna pratimā namum sukhakaram ||2||

चार-दिशि चार अंजन गिरीरा जहीं | सहस-चौरासिया एक दिशि छाजहीं ||  
ढोल सम गोल ऊपर तले सुन्दरं | भौन-बावन्न प्रतिमा नमूं सुखकरं ||३॥

Cāra-diśi cāra añjanagirī rājahīṁ |  
Sahasa-caurāsiyā ēka diśi chājahīṁ ||  
Dhōla sama gōla ūpara talē sundaram |  
Bhauna-bāvanna pratimā namum sukhakaram ||3||

एक इक चार दिशि चार शुभ बावरी | एक इक लाख जोजन अमल-जल भरी ||  
चहुँ दिशा चार वन लाख जोजन वरं | भौन-बावन्न प्रतिमा नमूं सुखकरं ||४॥

Ēka ika cāra diśi cāra śubha bāvarī |  
Ēka ika lākha jōjana amala-jala bharī ||  
Cahuṁ diśā cāra vana lākha jōjana varam |  
Bhauna-bāvanna pratimā namum sukhakaram ||4||

सोल वापीन मधि सोल-गिरि दधिमुखं | सहस दश महाजोजन लखत ही सुखं ||  
बावरी कोण दो माँहि दो रतिकरं | भौन-बावन्न प्रतिमा नमूं सुखकरं ||५॥  
Sōla vāpīna madhi sōla-giri dadhimukham |  
Sahasa daśa mahājōjana lakhata hī sukham ||  
Bāvarī kōṇa dō māṁhi dō ratikaram |  
Bhauna-bāvanna pratimā namum sukhakaram ||5||

शैल-बत्तीस इक सहस जोजन कहे | चार सोलै मिलैं सर्व बावन लहे ||  
एक-इक सीस पर एक जिनमंदिरं | भौन-बावन्न प्रतिमा नमूं सुखकरं ||६॥

Šaila-battīsa ika sahasa jōjana kahē |  
 Cāra sōlai milaim sarva bāvana lahē ||  
 Ēka-ika sīsa para ēka jinamandiram |  
 Bhauna-bāvanna pratimā namum sukhakaram ||6||

बिंब अठ एक सौ रतनमयि सोहर्हीं | देव देवी सरब नयन मन मोहर्हीं ||  
 पाँचसै धनुष तन पद्म-आसन परं | भौन-बावन्न प्रतिमा नमूं सुखकरं ||७॥

Bimba aṭha ēka sau ratanamayi sōhahīṁ |  
 Dēva dēvī saraba nayana mana mōhahīṁ ||  
 Pāṁcasai dhanuṣa tana padma-āsana param |  
 Bhauna-bāvanna pratimā namum sukhakaram ||7||

लाल नख-मुख नयन स्याम अरु स्वेत हैं | स्याम-रंग भौंह सिर-केश छवि देत हैं ||  
 वचन बोलत मनों हँसत कालुष हरं | भौन-बावन्न प्रतिमा नमूं सुखकरं ||८॥

Lāla nakha-mukha nayana syāma aru svēta haim |  
 Syāma-raṅga bhaunha sira-kēśa chavi dēta haim ||  
 Vacana bōlata manōṁ haṁsata kāluṣa haram |  
 Bhauna-bāvanna pratimā namum sukhakaram ||8||

कोटि-शशि-भानु-दुति-तेज छिप जात है | महा-वैराग-परिणाम ठहरात है ||  
 वयन नहिं कहें, लखि होत सम्यकधरं | भौन-बावन्न प्रतिमा नमूं सुखकरं ||९॥

Kōti-śaśi-bhānu-duti-tēja chipa jāta hai |  
 Mahā-vairāga-parināma ṭhaharāta hai ||  
 Vayana nahim kahaim, lakhi hōta samyakdharam |  
 Bhauna-bāvanna pratimā namum sukhakaram ||9||

(सोरठा छन्द)

नंदीश्वर-जिन-धाम, प्रतिमा-महिमा को कहे |  
 ‘द्यानत’ लीनो नाम, यही भगति शिव-सुख करे ||

(Sōraṭhā chanda)

Nandīśvara-jina-dhāma, pratimā-mahimā kō kahe |  
‘Dyānata’ līnō nāma, yahī bhagati śiva-sukha kare ||

ओं हीं श्रीनंदीश्वरद्वीपे पूर्व-दक्षिण-पश्चिम-उत्तरदिशु द्विपंचाशज्जनालयस्थ जिनप्रतिमाभ्यः  
जयमाला-पूर्णार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

*Om hrīṁ śrī nandīśvaradvīpē pūrvā-  
dakṣiṇa-paścima-uttaradiśu dvipañcāśajjinālayastha  
jinapratimābhya: Jayamālā-pūrṇārghyam  
nirvapāmīti svāhā |*

॥इत्याशीर्वदः पुष्पांजलिंक्षिपेत्॥  
|| *Ityāśīrvāda: Puṣpāñjalim kṣipet* ||

# श्रीरत्नत्रय-पूजा Śrī Ratnatraya-Pūjā

कविश्री द्यानतराय Kaviśrī Dyānatarāya

(दोहा)

चहुँगति-फनि-विष-हरन-मणि, दुःख-पावक जल-धार |

शिव-सुख-सुधा-सरोवरी, सम्यक्-त्रयी निहार ||

ओं ह्रीं श्रीसम्यक्र तन्त्रय धर्म! अत्र अवतर अवतर संवैषट्! (आह्वाननम्)

ओं ह्रीं श्रीसम्यक्र तन्त्रय धर्म! अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः! (स्थापनम्)

ओं ह्रीं श्रीसम्यक्र तन्त्रय धर्म! अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट्! (सन्निधिकरणम्)

(dōhā)

Cahuṁgati-phani-viṣa-harana-maṇi,

du:Kha-pāvaka jala-dhāra |

Śiva-sukha-sudhā-sarōvarī, samyak-trayī nihāra ||

*Om hrīṁ śrīsamyakratnatrāya dharma!*

*Atrā avatara avatara sanvausat! (āhvānanam)*

*Om hrīṁ śrīsamyakratnatrāya dharma!*

*Atrā tiṣṭha tiṣṭha tha: Tha:! (Sthāpanam)*

*Om hrīṁ śrīsamyakratnatrāya dharma!*

*Atrā mama sannihitō bhava bhava vasat! (sannidhikaranam)*

अष्टक(सोरठा छन्द)

क्षीरोदधि उनहार, उज्ज्वल-जल अति-सोहनो | जनम-रोग निर्वार, सम्यक्र तन्त्रय भजूँ||

ओं ह्रीं श्रीसम्यक्र तन्त्रयाय जन्म-जरा-मृत्यु-विनाशनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा ।१।

aṣṭaka (sōraṭhā chanda)

Kṣīrōdadhi unahāra, ujjvala-jala ati-sōhanō |

Janama-rōga niravāra, samyak ratnatraya bhajūṁ ||

*Om hrīṁ śrīsamyakratnatrāyāya janma-jarā-mṛtyu-vināśanāya jalāṁ nirvapāmīti svāhā |1|*

चंदन-केसर गारि, परिमल-महा-सुगंधमय | जनम-रोग निर्वार, सम्यक्रतन्त्रय भजूँ||

ओं ह्रीं श्रीसम्यक्र तन्त्रयाय भवताप-विनाशनाय चंदनं निर्वपामीति स्वाहा ।२।

Candana-kēsara gāri, parimala-mahā-sugandhamaya |

Janama-rōga niravāra, samyak ratnatraya bhajūṁ ||

*Om hrīṁ śrīsamyakratnatrāyāya bhavatāpa-vināśanāya candanam  
nirvapāmīti svāhā |2|*

तंदुल अमल चितार, बासमती-सुखदास के | जनम-रोग निरवार, सम्यक्र त्वय भजूँ||

ओं ह्रीं श्रीसम्यक्रत्वयाय अक्षयपद-प्राप्तये अक्षतान्तिर्वपामीति स्वाहा |३।

Tandula amala citāra, bāsamatī-sukhadāsa kē |  
Janama-rōga niravāra, samyak ratnatraya bhajūṁ ||

*Om hrīṁ śrīsamyakratnatrāyāya  
akṣayapada-prāptayē akṣatān nirvapāmīti svāhā |3|*

महकें फूल अपार, अलि गुंजे ज्यों थुति करें | जनम-रोग निरवार, सम्यक्रत्वय भजूँ||

ओं ह्रीं श्रीसम्यक्रत्वयाय कामबाण- विध्वंसनाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा |४।

Mahakēṁ phūla apāra, ali gunjen jyōṁ thuti karem |  
Janama-rōga niravāra, samyak ratnatraya bhajūṁ ||

*Om hrīṁ śrīsamyakratnatrāyāya kāmabāṇa-  
vidhvansanāya puṣpam nirvapāmīti svāhā |4|*

लाडू बहु विस्तार, चीकन मिष्ट सुगंधयुत | जनम-रोग निरवार, सम्यक्रत्वय भजूँ||

ओं ह्रीं श्रीसम्यक्रत्वयाय क्षुधारोग-विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा |५।

Lāḍū bahu vistāra, cīkana miṣṭa sugandhayuta |  
Janama-rōga niravāra, samyak ratnatraya bhajūṁ ||

*Om hrīṁ śrīsamyakratnatrāyāya kṣudhārōga-  
vināśanāya naivēdyam nirvapāmīti svāhā |5|*

दीप रत्नमय सार, जोत प्रकाशे जगत्में | जनम-रोग निरवार, सम्यक्रत्वय भजूँ||

ओं ह्रीं श्रीसम्यक्रत्वयाय मोहांधकार-विनाशनाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा |६।

Dīpa ratanamaya sāra, jōta prakāśe jagat mēṁ |  
Janama-rōga niravāra, samyak ratnatraya bhajūṁ ||  
*Om hrīṁ śrīsamyakratnatrāyāya mōhāndhakāra-*  
*vināśanāya dīpam̄ nirvapāmīti svāhā /6/*

धूप सुवास विथार, चंदन अगर कपूर की |  
जनम-रोग निर्वार, सम्यक्रत्नत्रय भजूँ||

ओं ह्रीं श्रीसम्यक्रत्नत्रयाय अष्टकर्म-दहनाय धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।७।  
Dhūpa suvāsa vithāra, candana agara kapūra kī |  
Janama-rōga niravāra, samyak ratnatraya bhajūṁ ||  
*Om hrīṁ śrīsamyakratnatrāyāya aṣṭakarma-dahanāya dhūpam̄*  
*nirvapāmīti svāhā |7|*

फल शोभा अधिकार, लौंग छुहरे जायफल | जनम-रोग निर्वार, सम्यक्रत्नत्रय भजूँ||  
ओं ह्रीं श्रीसम्यक्रत्नत्रयाय मोक्षफल-प्राप्तये फलं निर्वपामी तिस्वाहा ।८।

Phala sōbhā adhikāra, lauṅga chuhārē jāyaphala |  
Janama-rōga niravāra, samyak ratnatraya bhajūṁ ||  
*Om hrīṁ śrīsamyakratnatrāyāya mōkṣaphala-*  
*prāptayē phalam̄ nirvapāmīti svāhā |8|*

आठ दरब निरधार, उत्तम सों उत्तम लिये | जनम-रोग निर्वार, सम्यक्रत्न-त्रय भजूँ||  
ओं ह्रीं श्रीसम्यक्रत्नत्रयाय अनर्घ्यपद-प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।९।

Āṭha daraba niradhāra, uttama sōṁ uttama liyē |  
Janama-rōga niravāra, samyak ratna-traya bhajūṁ ||  
*Om hrīṁ śrīsamyakratnatrāyāya anarghyapada-*  
*prāptayē arghyam̄ nirvapāmīti svāhā |9|*

सम्यक्दरशन ज्ञान, ब्रत शिव-मग तीनों मयी |  
पार उतारन यान, ‘द्यानत’ पूजूं ब्रत-सहित ||

Samyak daraśana jñāna, vrata śiva-maga tīnōṁ mayī |  
Pāra utārana yāna, ‘dyānata’ pūjum vrata-sahita ||

ओं ह्रीं श्रीसम्यक्र तन्त्रयाय पूर्णार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।१०।

*Om hrīṁ śrīsamyakratnatrāyāya  
pūrṇārghyam nirvapāmīti svāhā |10|*

# सम्यगदर्शनपूजा Samyagdarśana Pūjā

(दोहा)

सिद्ध अष्ट-गुणमय प्रगट, मुक्त-जीव-सोपान । ज्ञान चरित जिंह बिन अफल, सम्यकदर्श प्रधान ॥

ओं ह्रीं श्रीअष्टांग सम्यगदर्शन! अत्र अवतर अवतर संवौषट्! (आह्वाननम्)

ओं ह्रीं श्रीअष्टांग सम्यगदर्शन! अत्र तिष्ठ तिष्ठ थः! (स्थापनम्)

ओं ह्रीं श्रीअष्टांग सम्यगदर्शन! अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट्! (सन्निधिकरणम्)

(dōhā)

*Sid'dha aṣṭa-guṇamaya pragata, mukta-jīva-sōpāna |  
Jñāna carita jinha bina aphala, samyakdarśa pradhāna ||*

*Om hrīṁ śrī aṣṭāṅga samyagdarśana!*

*Atrā avatara avatara sanvauṣat! (āhvānanam)*

*om hrīṁ śrī aṣṭāṅga samyagdarśana!*

*Atrā tiṣṭha tiṣṭha tha: tha!:! (Sthāpanam)*

*om hrīṁ śrī aṣṭāṅga samyagdarśana!*

*Atrā mama satrīhitō bhava bhava vaṣat! (sannidhikaranam)*

(सोरठा)

नीर सुगंध अपार, तृष्णा हरे मल-छय करे | सम्यगदर्शन सार, आठ-अंग पूजूं सदा ॥

ओं ह्रीं श्रीअष्टांग सम्यगदर्शनाय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा ॥१॥

(sōraṭhā)

*Nīra sugandha apāra, tṛṣṇā harē mala-chaya kare |*

*Samyagdarśana sāra, āṭha-aṅga pūjum sadā ||*

*Om hrīṁ śrī aṣṭāṅga samyagdarśanāya*

*janma-jarā-mṛtyuvināśanāya jalāṁ nirvapāmīti svāhā |I|*

जल केसर घनसार, ताप हरे शीतल करे | सम्यगदर्शन सार, आठ-अंग पूजूं सदा ॥

ओं ह्रीं श्रीअष्टांग सम्यगदर्शनाय संसारताप-विनाशनाय चंदनं निर्वपामीति स्वाहा ॥२॥

Jala kēsara ghanasāra, tāpa harē śītala kare |  
 Samyagdarśana sāra, āṭha-aṅga pūjum sadā ||  
*Om hrīṁ śrī aṣṭāṅga samyagdarśanāya  
 sansāratāpa-vināśanāya candanam nirvapāmīti svāhā |2|*

अछत अनूप निहार, दारिद नाशे सुख भरे | सम्यगदर्शन सार, आठ-अंग पूजूं सदा ||  
 ओं ह्रीं श्रीअष्टांग सम्यगदर्शनाय अक्षयपद-प्राप्तये अक्षतान्तिर्वपामीति स्वाहा ।३।

Achata anūpa nihāra, dārida nāsē sukha bhare |  
 Samyagdarśana sāra, āṭha-aṅga pūjum sadā ||  
*Om hrīṁ śrī aṣṭāṅga samyagdarśanāya  
 akṣayapada-prāptayē akṣatān nirvapāmīti svāhā |3|*

पुहुप सुवास उदार, खेद हरे मन शुचि करे | सम्यगदर्शन सार, आठ-अंग पूजूं सदा ||  
 ओं ह्रीं श्रीअष्टांग सम्यगदर्शनाय कामबाण- विध्वंसनाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।४।

Puhupa suvāsa udāra, khēda harē mana śuci kare |  
 Samyagdarśana sāra, āṭha-aṅga pūjum sadā ||  
*Om hrīṁ śrī aṣṭāṅga samyagdarśanāya  
 kāmabāṇa- vidhvansanāya puṣpam nirvapāmīti svāhā |4|*

नेवज विविध प्रकार, छुधा हरे थिरता करे | सम्यगदर्शन सार, आठ-अंग पूजूं सदा ||  
 ओं ह्रीं श्रीअष्टांग सम्यगदर्शनाय क्षुधारोग-विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।५।

Nēvaja vividha prakāra, chudhā harē thiratā kare |  
 Samyagdarśana sāra, āṭha-aṅga pūjum sadā ||  
*Om hrīṁ śrī aṣṭāṅga samyagdarśanāya  
 kṣudharōga-vināśanāya naivēdyam nirvapāmīti svāhā |5|*

दीप-ज्योति तमहार, घट-पट परकाशे महा | सम्यगदर्शन सार, आठ अंग पूजूं सदा ||  
 ओं ह्रीं श्रीअष्टांग सम्यगदर्शनाय मोहांधकार-विनाशनाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।६।

Dīpa-jyōti tamahāra, ghaṭa-paṭa parakāśe mahā |  
 Samyagdarśana sāra, āṭha aṅga pūjum sadā ||  
*Om hrīṁ śrī aṣṭāṅga samyagdarśanāya  
 mōhāndhakāra-vināśanāya dīpam nirvapāmīti svāhā* |6|

धूप ग्रान-सुख कार, रोग विघ्न जड़ता हरे | सम्यग्दर्शन सार, आठ अंग पूजूं सदा ||  
 ओं ह्रीं श्रीअष्टांग सम्यग्दर्शनाय अष्टकर्म-दहनाय धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।७।

Dhūpa ghrāna-sukhakāra, rōga vighana jaṭatā harē |  
 Samyagdarśana sāra, āṭha aṅga pūjum sadā ||  
*Om hrīṁ śrī aṣṭāṅga samyagdarśanāya  
 aṣṭakarma-dahanāya dhūpam nirvapāmīti svāhā* |7|

श्रीफल आदि विथार, निहचे सुर-शिव-फल करे | सम्यग्दर्शन सार, आठ अंग पूजूं सदा ||  
 ओं ह्रीं श्रीअष्टांग सम्यग्दर्शनाय मोक्षफल-प्राप्तये फलं निर्वपामीति स्वाहा ।८।

Śrīphala ādi vithāra, nihacē sura-śiva-phala kare |  
 Samyagdarśana sāra, āṭha aṅga pūjum sadā ||  
*Om hrīṁ śrī aṣṭāṅga samyagdarśanāya  
 mōkṣaphala-prāptayē phalam nirvapāmīti svāhā* |8|

जल गंधाक्षत चारु, दीप धूप फल फूल चरु | सम्यग्दर्शन सार, आठ अंग पूजूं सदा ||  
 ओं ह्रीं श्रीअष्टांग सम्यग्दर्शनाय अनर्घ्यपद-प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।९।

Jala gandhākṣata cāru, dīpa dhūpa phala phūla caru |  
 Samyagdarśana sāra, āṭha aṅga pūjum sadā ||  
*Om hrīṁ śrī aṣṭāṅga samyagdarśanāya  
 anarghyapada-prāptayē arghyam nirvapāmīti svāhā* |9|

## जयमाला Jayamālā

(दोहा)

आप आप निहचै लखे, तत्त्व-प्रीति व्योहार |  
रहित दोष पच्चीस हैं, सहित अष्ट गुन सार ||१||

(dōhā)

Apa āpa nihacai lakhe, tattva-prīti vyōhāra |  
Rahita dōṣa paccīsa haim, sahita aṣṭa guna sāra ||1||

(चौपाई मिश्रित गीताछंद)

सम्यक्दरशन-रत्न गहीजे, जिन-वच में संदेह न कीजे |  
इहभव विभव-चाह दुःख दानी, परभव भोग चहे मत प्रानी ||२||

(Caupār'i miśrita gītāchanda)  
Samyak daraśana-ratna gahīje,  
jina-vaca mēṁ sandēha na kīje |  
Ihabhava vibhava-cāha du:Khadānī,  
parabhava bhōga cahe mata prānī ||2||

प्रानी गिलान न करि अशुचि लखि, धरम गुरु प्रभु परखिये |  
पर-दोष ढंकिये धरम डिगते, को सुथिर कर हरखिये ||३||

Prānī gilāna na kari aśuci lakhi,  
dharama guru prabhu parakhiyē |  
Para-dōṣa ḫankiyē dharama ḫigatē,  
kō suthira kara harakhiyē ||3||

चहुँसंघ को वात्सल्य कीजे, धरम की प्रभावना |  
गुन आठ सों गुन आठ लहि के, इहाँ फेर न आवना ||४||

Cahuṁsaṅgha kō vātsalya kīje, dharama kī prabhāvanā |  
Guna āṭha sōm guna āṭha lahi kai, ihāṁ phēra na āvanā ||4||

ओं श्री अष्टांगसहित-पंचविंशति-दोषरहित-सम्यगदर्शनाय जयमाला-पूर्णार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।

*Om śrī aṣṭāṅga-sahita-pañcaviniśati-doṣarahaita-samyagdarśanāya  
jayamālā-pūrṇārghyam nirvapāmīti svāhā |*

# सम्यग्ज्ञानपूजा Samyagjñāna Pūjā

(दोहा)

पंच भेद जाके प्रकट, ज्ञेय-प्रकाशन-भान। मोह-तपन-हर चंद्रमा, सोई सम्यक्ज्ञान ॥

ओं ह्रीं श्रीअष्टविधसम्यग्ज्ञान! अत्र अवतर अवतर संवौषट्! (आह्वाननम्)

ओं ह्रीं श्रीअष्टविधसम्यग्ज्ञान! अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः! (स्थापनम्)

ओं ह्रीं श्रीअष्टविधसम्यग्ज्ञान! अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट्! (सन्निधिकरणम्)

(dōhā)

*Pañca bhēda jākē prakaṭa, jñēya-prakāśana-bhāna |*

*Mōha-tapana-hara candramā, sōi samyakjñāna ||*

*om hrīṁ śrī aṣṭavidha samyagjñāna!*

*Atrā avatara avatara sanvauṣat! (āhvānanam)*

*om hrīṁ śrī aṣṭavidha samyagjñāna!*

*Atrā tiṣṭa tiṣṭa tha: tha:! (Sthāpanam)*

*om hrīṁ śrī aṣṭavidha samyagjñāna!*

*Atrā mama sannihitō bhava bhava vaṣat! (sannidhikaranam)*

(सोरठा छन्द)

नीर सुगंध अपार, तृषा हरे मल-छय करे | सम्यग्ज्ञान विचार, आठ-भेद पूजूं सदा ॥

ओं ह्रीं श्री अष्टविध सम्यग्ज्ञानाय जन्म-जरा-मृत्यु-विनाशनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा ।१।

(sōraṭhā chanda)

*Nīra sugandha apāra, tṛṣā harē mala-chaya kare |*

*Samyagjñāna vicāra, āṭha-bhēda pūjum sadā ||*

*om hrīṁ śrī aṣṭavidha samyagjñānāya*

*janma-jarā-mṛtyu-vināśanāya jalām nirva. Svāhā |1|*

जल केसर घनसार, ताप हरे शीतल करे | सम्यग्ज्ञान विचार, आठ-भेद पूजूं सदा ॥

ओं ह्रीं श्री अष्टविध सम्यग्ज्ञानाय संसारताप-विनाशनाय चंदनं निर्वपामीति स्वाहा ।२।

Jala kēsara ghanasāra, tāpa harē śītala karē |  
 Samyagjñāna vicāra, āṭha-bhēda pūjum sadā ||  
*om hrīṁ śrī aṣṭavidha samyagjñānāya*  
*sansāratāpa-vināśanāya candanam nirvapāmīti svāhā |2|*

अछत अनूप निहार, दारिद नाशे सुख भरे | सम्यग्ज्ञान विचार, आठ-भेद पूजूं सदा ||  
 ओं हीं श्रीअष्टविध सम्यग्ज्ञानाय अक्षयपद-प्राप्तये अक्षतान्निर्वपामीति स्वाहा ।३।

Achata anūpa nihāra, dārida nāśe sukha bhare |  
 Samyagjñāna vicāra, āṭha-bhēda pūjum sadā ||  
*om hrīṁ śrī aṣṭavidha samyagjñānāya*  
*akṣayapada-prāptayē akṣatān nirvapāmīti svāhā |3|*

पुहुप सुवास उदार, खेद हरे मन शुचि करे | सम्यग्ज्ञान विचार, आठ-भेद पूजूं सदा ||  
 ओं हीं श्रीअष्टविध सम्यग्ज्ञानाय कामबाण- विध्वंसनाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।४।

Puhupa suvāsa udāra, khēda harē mana śuci kare |  
 Samyagjñāna vicāra, āṭha-bhēda pūjum sadā ||  
*om hrīṁ śrī aṣṭavidha samyagjñānāya*  
*kāmabāṇa- vidhvansanāya puṣpam nirvapāmīti svāhā |4|*

नेवज विविधप्रकार, छुधा हरे थिरता करे | सम्यग्ज्ञान विचार, आठ-भेद पूजूं सदा ||  
 ओं हीं श्रीअष्टविध सम्यग्ज्ञानाय क्षुधारोग-विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।५।

Nēvaja vividhaprakāra, chudhā harē thiratā kare |  
 Samyagjñāna vicāra, āṭha-bhēda pūjum sadā ||  
*om hrīṁ śrī aṣṭavidha samyagjñānāya*  
*kṣudharōga-vināśanāya naivēdyam nirvapāmīti svāhā |5|*

दीप-जोति तम-हार, घट-पट परकाशे महा | सम्यग्ज्ञान विचार, आठ-भेद पूजूं सदा ||  
 ओं हीं श्रीअष्टविध सम्यग्ज्ञानाय मोहांधकार-विनाशनाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।६।

Dīpa-jōti tama-hāra, ghaṭa-paṭa parakāśe mahā |  
 Samyagjñāna vicāra, āṭha-bhēda pūjum sadā ||  
*om hrīṁ śrī aṣṭavidha samyagjñānāya*  
*mōhāndhakāra-vināśanāya dīpam nirvapāmīti svāhā |6|*

धूप घ्रान-सुखकार, रोग-विघ्न-जड़ता हरे | सम्यग्ज्ञान विचार, आठ-भेद पूजूं सदा ||  
 ओं ह्रीं श्रीअष्टविध सम्यग्ज्ञानाय अष्टकर्म-दहनाय धूपं निर्वपामीति स्वाहा |७।

Dhūpa ghrāna-sukhakāra, rōga-vighana-jaṭatā hare |  
 Samyagjñāna vicāra, āṭha-bhēda pūjum sadā ||  
*om hrīṁ śrī aṣṭavidha samyagjñānāya*  
*aṣṭakarma-dahanāya dhūpam nirvapāmīti svāhā |7|*

श्रीफल आदि विथार, निहचे सुर-शिव-फल करे। सम्यग्ज्ञान विचार, आठ-भेद पूजूं सदा ||  
 ओं ह्रीं श्रीअष्टविध सम्यग्ज्ञानाय मोक्षफल-प्राप्तये फलं निर्वपामीति स्वाहा |८।

Śrīphala ādi vithāra, nihacē sura-śiva-phala kare |  
 samyagjñāna vicāra, āṭha-bhēda pūjum sadā ||  
*om hrīṁ śrī aṣṭavidha samyagjñānāya*  
*mōkṣaphala-prāptayē phalam nirvapāmīti svāhā |8|*

जल गंधाक्षत चारु, दीप धूप फल-फूल चरु | सम्यग्ज्ञान विचार, आठ-भेद पूजूं सदा ||  
 ओं ह्रीं अष्टविध सम्यग्ज्ञानाय अनर्घ्यपद-प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा |९।

Jala gandhākṣata cāru, dīpa dhūpa phala-phūla caru |  
 Samyagjñāna vicāra, āṭha-bhēda pūjum sadā ||  
*om hrīṁ aṣṭavidha samyagjñānāya*  
*anarghyapada-prāptayē arghyam nirvapāmīti svāhā |9|*

## जयमाला Jayamālā

(दोहा)

आप आप-जाने नियत, ग्रन्थ-पठन व्यौहार | संशय-विभ्रम-मोह-बिन, अष्ट-अंग गुनकार ||

(dōhā)

Apa āpa-jānē niyata, grantha-paṭhana vyauhāra |  
Sanśaya-vibhrama-mōha-bina, aṣṭa-aṅga gunakāra ||

(चौपाई मिश्रित गीताछंद)

सम्यकज्ञानरतन मन भाया, आगम तीजा नैन बताया |  
अक्षर शुद्ध अर्थ पहिचानो, अक्षर अरथ उभय संग जानो ||

(Caupār'i miśrita gītāchanda)

Samyak jñāna ratana mana bhāyā, āgama tījā naina batāyā |  
Akṣara śud'dha artha pahicānō, akṣara aratha ubhaya saṅga jānō ||

जानो सुकाल-पठन जिनागम, नाम गुरु न छिपाइये |  
तप रीति गहि बहु मौन देके, विनय गुण चित लाइये ||

Jānō sukāla-paṭhana jināgama, nāma guru na chipā'iyē |  
Tapa rīti gahi bahu mauna dēkē, vinaya guṇa cita lā'iyē ||

ये आठ भेद करम उछेदक, ज्ञान-दर्पण देखना |  
इस ज्ञान ही सों भरत सीझा, और सब पट-पेखना ||

Yē āṭha bhēda karama uchēdaka, jñāna-darpaṇa dēkhanā |  
Isa jñāna hī som bharata sījhā, aura saba pāṭa-pēkhanā ||

ओं ह्रीं श्रीअष्टविधि सम्यग्ज्ञानाय जयमाला-पूर्णार्घ्यम् निर्वापामिति स्वाहा।

*Om hrīm śrī aṣṭavidha samyagjñānāya jayamālā-pūrnārghyam  
nirvapāmīti svāhā |*

# सम्यक्वचारित्रपूजा Samyakcārītra Pūjā

(दोहा)

विषय-रोग औषध महा, दव-कषाय जलधार | तीर्थकर जाको धरे, सम्यक्वचारित सार ||

ओं ह्रीं श्री त्रयोदशविधि-सम्यक्वचारित्र! अत्र अवतर अवतर संवौषट्! (आह्वाननम्)

ओं ह्रीं श्री त्रयोदशविधि-सम्यक्वचारित्र! अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः! ठः! (स्थापनम्)

ओं ह्रीं श्री त्रयोदशविधि-सम्यक्वचारित्र! अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट्! (सन्निधिकरणम्)

(dōhā)

*Viṣaya-rōga auśadha mahā, dava-kaśāya jaladhāra |*

*Tīrthaṅkara jākō dhare, samyakcārita sāra ||*

*Om hrīṁ śrī trāyōdaśavidha-samyakcārītra!*

*Atrā avatara avatara sanvauṣat! (āhvānanam)*

*Om hrīṁ śrī trāyōdaśavidha-samyakcārītra!*

*Atrā tiṣṭa tiṣṭa ṛha: tha:! (Sthāpanam)*

*Om hrīṁ śrī trāyōdaśavidha-samyakcārītra!*

*Atrā mama sannihitō bhava bhava vaṣat! (sannidhikaranam)*

(सोरठा छन्द)

नीर सुगन्ध अपार, तृषा हरे मल छय करे | सम्यक्वचारित सार, तेरहविधि पूजूं सदा ||

ओं ह्रीं श्री त्रयोदशविधि-सम्यक्वचारित्राय जन्म-जरा-मृत्यु-विनाशनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा ।१।

(sōraṭhā chanda)

*Nīra sugandha apāra, tṛṣā harē mala chaya karē |*

*Samyakcārita sāra, tērahavidha pūjum sadā ||*

*Om hrīṁ śrī trāyōdaśavidha-samyakcārītrāya  
janma-jarā-mṛtyu-vināśanāya jalāṁ nirvapāmīti svāhā |1|*

जल केसर घनसार, ताप हरे शीतल करे | सम्यक्वचारित सार, तेरहविधि पूजूं सदा ||

ओं ह्रीं श्री त्रयोदशविधि-सम्यक्वचारित्राय संसार ताप-विनाशनाय चंदनं निर्वपामीति स्वाहा ।२।

Jala kēsara ghanasāra, tāpa harē śītala karē |  
 Samyakcārīta sāra, tērahavidha pūjum sadā ||  
 ‘Om hrīm śrī trāyōdaśavidha-samyakcārītrāya  
 sansāratāpa-vināśanāya candanam nirva. Svāhā |2|

अछत अनूप निहार, दारिद नाशे सुख भरे | सम्यक्चारित सार, तेरहविध पूजूं सदा ||  
 ओं ह्रीं श्री त्रयोदशविध-सम्यक्चारित्राय अक्षयपद-प्राप्तये अक्षतान्तिर्वपामीति स्वाहा |३।

Achata anūpa nihāra, dārida nāśe sukha bhare |  
 Samyakcārīta sāra, tērahavidha pūjum sadā ||  
 ‘Om hrīm śrī trāyōdaśavidha-samyakcārītrāya  
 akṣayapada-prāptayē akṣatān nirvapāmīti svāhā |3|

पुहुप सुवास उदार, खेद हरे मन शुचि करे | सम्यक्चारित सार, तेरहविध पूजूं सदा ||  
 ओं ह्रीं श्री त्रयोदशविध-सम्यक्चारित्राय कामबाण- विध्वंसनाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा |४।

Puhupa suvāsa udāra, khēda hare mana śuci kare |  
 Samyakcārīta sāra, tērahavidha pūjum sadā ||  
 ‘Om hrīm śrī trāyōdaśavidha-samyakcārītrāya  
 kāmabāṇa-vidhvansanāya puśpam nirvapāmīti svāhā |4|

नैवज विविधप्रकार, छुधा हरे थिरता करे | सम्यक्चारित सार, तेरहविध पूजूं सदा ||  
 ओं ह्रीं श्री त्रयोदशविध-सम्यक्चारित्राय क्षुधारोग-विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा |५।

Nēvaja vividhaprakāra, chudhā hare thiratā kare |  
 Samyakcārīta sāra, tērahavidha pūjum sadā ||  
 ‘Om hrīm śrī trāyōdaśavidha-samyakcārītrāya  
 kṣudharōga-vināśanāya naivēdyam nirva. Svāhā |5|

दीप-जोति तम-हार, घट-पट परकाशे महा | सम्यक्चारित सार, तेरहविध पूजूं सदा ||  
ओं ह्रीं श्री त्रयोदशविध-सम्यक्चारित्राय मोहांधकार-विनाशनाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।६।

Dīpa-jōti tama-hāra, ghaṭa-paṭa parakāśe mahā |  
Samyakcārīta sāra, tērahavidha pūjum sadā ||  
*Om hrīṁ śrī trāyōdaśavidha-samyakcāritrāya  
mōhāndhakāra-vināśanāya dīpam nirva. Svāhā ।6।*

धूप ग्रान-सुखकार, रोग विघ्न जड़ता हरे | सम्यक्चारित सार, तेरहविध पूजूं सदा ||  
ओं ह्रीं श्री त्रयोदशविध-सम्यक्चारित्राय अष्टकर्म-दहनाय धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।७।

Dhūpa ghrāna-sukhakāra, rōga vighana jaṭatā harē |  
Samyakcārīta sāra, tērahavidha pūjum sadā ||  
*Om hrīṁ śrī trāyōdaśavidha-samyakcāritrāya  
aṣṭakarma-dahanāya dhūpam nirvapāmīti svāhā ।7।*

श्रीफल आदि विथार, निहचै सुर-शिव-फल करे | सम्यक्चारित सार, तेरहविध पूजूं सदा ||  
ओं ह्रीं श्री त्रयोदशविध-सम्यक्चारित्राय मोक्षफल-प्राप्तये फलं निर्वपामीति स्वाहा ।८।

Śrīphala ādi vithāra, nihacai sura-śiva-phala kare |  
Samyakcārīta sāra, tērahavidha pūjum sadā ||  
*Om hrīṁ śrī trāyōdaśavidha-samyakcāritrāya  
mōkṣaphala-prāptayē phalam nirvapāmīti svāhā ।8।*

जल गंधाक्षत चारु, दीप धूप फल फूल चरु | सम्यक्चारित सार, तेरहविध पूजूं सदा ||  
ओं ह्रीं श्री त्रयोदशविध-सम्यक्चारित्राय अनर्घ्यपद-प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।९।

Jala gandhākṣata cāru, dīpa dhūpa phala phūla caru |  
Samyakcārīta sāra, tērahavidha pūjum sadā ||  
*Om hrīṁ śrī trāyōdaśavidha-samyakcāritrāya  
anarghyapada-prāptayē arghyam nirvapāmīti svāhā ।9।*

## जयमाला Jayamālā

(दोहा)

आप आप-थिर नियत-नय, तप-संजम व्यौहार |

स्व-पर-दया दोनों लिये, तेरहविध दुःखहार ||

(dōhā)

Apa āpa-thira niyata-naya, tapa-sañjama vyauhāra |  
Sva-para-dayā dōnōm liyē, tērahavidha du:Khahāra ||

(चौपाई मिश्रित गीता छन्द)

सम्यक्चारित रतन संभालो, पाँच-पाप तजिके ब्रत पालो |

पंच समिति त्रय गुपति गहीजे, नरभव सफल करहु तन छीजे ||

(Caupāi miśrita gītā chanda)

Samyakcārīta ratana sambhālo,

pāṁca-pāpa tajikē vrata pālo |

Pañca samiti traya gupati gahījē,  
narabhava saphala karahu tana chījē ||

छीजे सदा तन कोजतन यह, एक संजम पालिये |

बहु रुल्यो नरक-निगोद माहीं, विष-कषायनि टालिये ||

Chījē sadā tana kō jatana yaha, ēka sañjama pāliyē |  
Bahu rulyō naraka-nigōda māhīm, viṣa-kaṣāyani tāliyē ||

शुभ-करम-जोग सुघाट आयो, पार हो दिन जात है |

‘द्यानत’ धरम की नाव बैठो, शिवपुरी कुशलात है ||

Śubha-karama-jōga sughāṭa āyō, pāra hō dina jāta hai |  
‘Dyānata’ dharama kī nāva baithō, śivapurī kuśalāta hai ||

ओं हर्णि श्री त्रयोदशविध-सम्यक्चारित्राय जयमाला-पूर्णार्थं निर्वपामीति स्वाहा।  
*Om hr̄īṁ śr̄ī trāyōdaśavidha-samyakcāritrāya  
 jayamālā-pūrnārghyam nirvapāmīti svāhā |*

### समुच्चय-जयमाला Samuccaya-Jayamālā (दोहा)

सम्यक्दरशन-ज्ञान-व्रत, इन बिन मुकति न होय |

अन्ध पंगु अरु आलसी, जुदे जलें दब-लोय ||१||

(dōhā)

*Samyakdaraśana-jñāna-vrata, ina bina mukati na hōya |  
 Andha paṅgu aru ālasī, judē jalem dava-lōya ||1||*

(चौपाई 16 मात्रा)

जा पे ध्यान सुथिर बन आवे, ताके करम-बंध कट जावे |

ता सों शिव-तिय प्रीति बढ़ावे, जो सम्यक्रत्नत्रय ध्यावे ||२||

(Caupāi 16 mātrā)

*Jā pe dhyāna suthira bana āve,  
 tākē karama-bandha kaṭa jāvei |*

*Tā som śiva-tiya prīti baṛhāve,  
 jō samyak ratnatraya dhyāve ||2||*

ताको चहुँ-गति के दुःख नाहीं, सो न परे भवसागर माहीं |

जन्म-जरा-मृत दोष मिटावे, जो सम्यक्रत्नत्रय ध्यावे ||३||

*Tākō cahum̄-gati kē du:Kha nāhīṁ,  
 sō na parē bhavasāgara māhīṁ |*

*Janama-jarā-mṛta dōsā miṭāve, jō samyak ratnatraya dhyāve ||3||*

सोई दशलच्छन को साधे, सो सोलह कारण आराधे ।  
सो परमात्म-पद उपजावे, जो सम्यक्रत्नत्रय ध्यावे ॥४॥

Sōi daśalacchana kō sādhe,  
sō sōlaha kāraṇa ārādhe ।  
Sō paramātama-pada upajāve,  
jō samyak ratnatraya dhyāve ॥4॥

सोई शक्र-चक्रिपद लेई, तीन लोक के सुख विलसेई ।  
सो रागादिक भाव बहावे, जो सम्यक्रत्नत्रय ध्यावे ॥५॥

Sōi śakra-cakripada lēi,  
tīna lōka kē sukha vilasēi ।  
Sō rāgādika bhāva bahāve,  
jō samyak ratnatraya dhyāve ॥5॥

सोई लोकालोक निहारे, परमानंद दशा विस्तारे ।  
आप तिरे औरन तिरवावे, जो सम्यक्रत्नत्रय ध्यावे ॥६॥

Sōi lōkālōka nihārē, paramānanda daśā vistāre ।  
Āpa tire aurana tiravāve, jō samyak ratnatraya dhyāve ॥6॥

(दोहा)

एक स्वरूप-प्रकाश निज, वचन कह्यो नहिं जाय ।  
तीन भेद व्योहार सब, ‘द्यानत’ को सुखदाय ॥७॥

(Dōhā)

Eka svarūpa-prakāśa nija, vacana kahyō nahim jāya ।  
Tīna bhēda vyōhāra saba, ‘dyānata’ kō sukhadāya ॥7॥

ओं ह्रीं श्री सम्यगदर्शन-सम्यग्ज्ञान-सम्यकचारित्रेभ्यः  
समुच्चय-जयमाला—पूर्णार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

*Om hrīm śrī samyagdarśana-samyagjñāna-samyakcārītrōbhya: Samuccaya-jayamālā – pūrnārghyam nirvapāmīti svāhā |*

॥इत्याशीर्वदः पुष्पांजलिंक्षिपेत्॥

|| *Ityāśīrvāda: Puṣpāñjalim kṣipēt* ||

# स्वयंभूस्तोत्र-भाषा Svayambhūstōtra-Bhāṣā

मूल(संस्कृत) रचनाःआचार्यसमंतभद्र

भाषा(हिन्दी) अनुवादः कविश्री द्यानतराय

विद्वानों, योगियों और त्यागी-तपस्वियों के पूज्य स्वामी आचार्य समंतभद्र सोत्साह

मुनि जीवन व्यतीत कर रहे थे, उस समय असाता वेदनीय कर्म के प्रबल

उदय से उन्हें ‘भस्मक’ नाम का महारोग हो गया ।

मुनिचर्या के दौरान इस रोग का शमन होना असंभव जानकर उन्होंने

अपने गुरु से सल्लेखना धारण करने की आज्ञा चाही ।

गुरु महाराज ने कहा कि आप के द्वारा जिन-शासन की विशेष प्रभावना

होनी है, सल्लेखना का समय अभी नहीं आया है।

Mūla (sanskrit) rachana: ācārya samantabhadra  
Bhasha (hindī) anuvāda: Kaviśrī dyānatarāya  
vidvānōṁ, yōgīyōṁ aura tyāgī-tapasviyōṁ  
ke poojya svāmī ācārya samantabhadra  
sōtsāha muni jīvana vyatīta kara rahē thē,  
usa samaya asātā vēdanīya karma ke prabala  
udaya sē unhēṁ ‘bhasmaka’ nāma kā mahārōga  
hō gayā. Municaryā ke daurāna isa rōga kā  
śamana hōnā asambhava jānakara unhōnnē  
apanē guru sē sallēkhanā dharaṇa karanē kī ājñā  
cāhī| guru mahārāja nē kahā ki āpa ke dvārā  
jin-śāsana ki vishesh prabhaavana honee hai,  
sallēkhanā kā samaya abhī nahīṁ āyā hai |

रोग-शमन हेतु पौष्टिक भोजन की आज्ञा लेकर आपने दिगम्बर वेष का  
त्याग किया और कांची में मलिन वेषधारी दिगम्बर रहे, राजा ने उन्हें  
सही-सही परिचय बताने के लिए कहा। समंतभद्र ने कहा कि मैं आचार्य हूँ,  
शास्त्रार्थियों में श्रेष्ठ हूँ, पण्डित हूँ, ज्योतिषी हूँ, वैद्य हूँ, कवि हूँ,  
मांत्रिक-तांत्रिक हूँ, हे राजन! इस संपूर्ण पृथ्वी में मैं आज्ञा सिद्ध हूँ,  
अधिक क्या कहूँ, सिद्ध सारस्वत हूँ और अब आपके सम्मुख  
जैन-वादी खड़ा है, जिसकी शक्ति हो मुझसे शास्त्रार्थ कर ले।

Rōga-śamana hētu paushtika bhōjana  
kī ājñā lēkara āpanē digambara vēṣa kā  
tyāga kiyā aura kāncī mēṁ malina vēṣadharī  
digambara rahē, rājā nē unhēṁ sahī-sahī paricaya  
batānē ke li'ē kahā. Samantabhadra nē kahā ki  
maim ācārya hūṁ, śāstrārthiyōṁ mēṁ śrēṣṭa hūṁ,  
paṇḍita hūṁ, jyōtiṣī hūṁ, vaidya hūṁ, kavi hūṁ,  
māntrika – tāntrika hūṁ, hē rājana! Isa sampūrṇa  
pr̥thvī mēṁ maim ājñā sid'dha hūṁ, adhika kyā kahūṁ,  
sid'dha sārasvata hūṁ aura aba āpa ke sam'mukha jaina –  
vādī khaṛā hai, jisakī śakti hō mujhasē śāstrārtha kara lē |

उन्होंने चौबीस तीर्थकरों का स्तवन शुरू किया, जब वे आठवें तीर्थकर  
चन्द्रप्रभु का स्तवन कर रहे थे तब चन्द्रप्रभ भगवान की मूर्ति प्रकट हो गई।  
स्तवन पूर्ण हुआ। यह स्तवन ‘स्वयंभूस्तोत्र’ के नाम से प्रसिद्ध है।  
यह कथा ब्र. नेमिदत्त कथाकोश के आधार पर है।

Unhōnnē caubīsa tītharkarōṁ kā  
stavana śuru kiyā, jaba vē āṭhavēṁ tīrthaṅkara  
candraprabhu kā stavana kara rahē thē taba candraprabh  
bhagavāna kī mūrti prakaṭa hō gai. Stavana pūrṇa hu'ā.  
Yaha stavana ‘svayambhū-strōta’ ke nāma sē prasid'dha  
hai. Isakī kathā bra. nēmidatta kathākōśa केऽधरा para hai.

(चौपाईछन्द)

राजविषें जुगलनि सुख कियो, राजत्याग भवि शिवपद लियो ।  
स्वयंबोध स्वयंभू भगवान्, वंदू आदिनाथ गुणखान ॥१॥

(Caupāi chanda)

Rājaviṣaim jugalani sukha kiyō,  
rājatyāga bhavi śivapada liyō ।  
Svayambōdha svayambhū bhagavān,  
vandum ‘ādinātha’ guṇakhāna ॥1॥

इन्द्र क्षीरसागर जल लाय, मेरु न्हवाये गाय बजाय ।  
मदन विनाशक सुख करतार, वंदू अजित अजित-पदकार ॥२॥

Indra kṣīrasāgara jala lāya, mēru nhavāyē<sup>gāya bajāya</sup> | Madana vināśaka sukha karatāra,  
vandum ‘ajita’ ajita-padakāra ॥२॥

शुक्लध्यान करि करम विनाशि, घाति-अघाति सकल दुःख राशि ।  
लहो मुकतिपद सुख अविकार, वंदू संभव भव-दुःख टार ॥३॥

Śukladhyāna kari karama vināśi,  
ghāti-aghāti sakala du:Kha rāśi |  
Lahyō mukatipada sukha avikāra,  
vandum ‘sambhava’ bhava-du:Kha ṭāra ॥३॥

माता पश्चिम रथन मँझार, सुपने देखे सोलह सार ।  
भूप-पूछि फल सुनि हरषाय, वंदू अभिनंदन मन लाय ॥४॥

Mātā paścima rayana maṁjhāra,  
supanē dēkhē sōlaha sāra |  
Bhūpa-pūchi phala suni haraśāya,  
vandaum ‘abhinandana’ mana lāya ||4||

सब कुवादवादी सरदार, जीते स्याद्वाद-धुनि धार |  
जैनधरम-परकाशक स्वाम, सुमतिदेव पद करहुँ प्रणाम ||५||

Saba kuvādavādī saradāra, jītē syādvāda-  
dhuni dhāra | Jaina dharama-parakāśaka  
svāma, ‘sumatidēva’ pada karahuṁ praṇāma ||5||

गर्भ अगाऊ धनपति आय, करी नगर-शोभा अधिकाय |  
बरसे रतन पंचदश-मास, नमूं पदमप्रभ सुख की राश ||६||

Garbha agā’ū dhanapati āya,  
karī nagara- śōbhā adhikāya |  
Barasē ratana pañcadaśa-māsa,  
namum ‘padamaprabha’ sukha kī rāśa ||6||

इन्द्र फणीन्द्र नरेन्द्र त्रिकाल, बानी सुनि-सुनि होहिं खुशाल |  
द्वादश सभा ज्ञान-दातार, नमूं सुपारसनाथ निहार ||७||

Indra phaṇīndra narēndra trikāla,  
bānī suni-suni hōhim khuśāla |  
Dvādaśa sabhā jñāna-dātāra,  
namum ‘supārasanātha’ nihāra ||7||

सुगुन छियालिस हैं तुम माँहिं, दोष-अठारह कोऊ नाहिं |  
मोह-महातम-नाशक दीप, नमूं चंद्र प्रभराख समीप ||८||

Suguna chiyālisa haiṁ tuma māṁhiṁ,  
 dōṣa-aṭhāraha kō'ū nāhiṁ |  
 Mōha-mahātama-nāśaka dīpa,  
 namum ‘candraprabha’ rākha samīpa ||8||

द्वादशविधि तप करम विनाश, तेरहविधि-चारित्र प्रकाश |  
 निज अनिच्छ भवि इच्छकदान, वंदू पुष्पदंत मन-आन ||९||

Dvādaśavidha tapa karama vināśa,  
 tērahavidh-cāritra prakāśa |  
 Nija aniccha bhavi icchakadāna,  
 vandum ‘puṣpadanta’ mana-āna ||9||

भवि-सुखदाय सुरग तें आय, दशविधि धरम कह्यो जिनराय |  
 आप-समान सबनि सुख देह, वंदू शीतल धर्म-सनेह ||१०||

Bhavi-sukhadāya suraga tem āya,  
 daśavidhi dharama kahyō jinarāya |  
 Āpa-samāna sabani sukha dēha,  
 vandum ‘śītala’ dharma-sanēha ||10||

समता-सुधा कोप-विष-नाश, द्वादशांग-वानी परकाश |  
 चार संघ-आनंद-दातार, नमू श्रेयांस जिनेश्वर सार ||११||

Samatā-sudhā kōpa-viṣa-nāśa,  
 dvādaśāṅga-vānī parakāśa |  
 Cāra saṅgha-ānanda-dātāra,  
 namum ‘śrēyānsa’ jinēśvara sāra ||11||

रतनत्रय चिरमुकुट विशाल, शोभै कंठ सुगुन मनिमाल।  
 मुक्तिनार भरता भगवान, वासुपूज्य बंदौं धर ध्यान॥१२॥

Ratanatraya sira mukuṭa viśāla,  
śōbhe kaṇṭha suguna-mani-māla |  
Muktināra-bharttā bhagavān,  
'vāsupūjya' vandum dhara dhyāna ||12||

परम समाधि-स्वरूप जिनेश, ज्ञानी-ध्यानी हित-उपदेश |  
कर्म नाशि शिव-सुख-विलसंत, वंदू विमलनाथ भगवंत ||१३||

Parama samādhi-svarūpa jinēśa,  
jñānī-dhyānī hita-upadēśa |  
Karma nāśi śiva-sukha-vilasanta,  
vandum 'vimalanātha' bhagavanta ||13||

अंतर-बाहिर परिग्रह टारि, परम दिगंबर-व्रत को धारि |  
सर्वजीव-हित-राह दिखाय, नमू अनंत वचन मनलाय ||१४||

Antara-bāhira parigraha ṭāri,  
parama digambara-vrata kō dhāri |  
Sarvajīva-hita-rāha dikhāya,  
namum 'ananta' vacana manalāya ||14||

सात तत्त्व पंचासतिकाय, नव-पदार्थ छह द्रव्य बताय |  
लोक अलोक सकल परकाश, वंदू धर्मनाथ अविनाश ||१५||

Sāta tattva pañcāsatikāya,  
nava-padārtha chaha dravya batāya |  
Lōka alōka sakala parakāśa,  
vandum 'dharmanātha' avināśa ||15||

पंचम चक्रवर्ति निधिभोग, कामदेव द्वादशम मनोग|  
शांतिकरण सोलम-जिनराय, शांतिनाथ वंदू हरषाय ||१६||

Pañcama cakravarti nidhibhōga,  
 kāmadēva dvādaśama manōga |  
 Śāntikaraṇa sōlama-jinarāya,  
 ‘śāntinātha’ vandum haraśāya ||16||

बहु थुति करे हरष नहिं होय, निंदे दोष गहें नहिं कोय |  
 शीलवान परब्रह्म-स्वरूप, वंदू कुंथुनाथ शिवभूप ||१७||

Bahu thuti karē haraśa nahim hōya,  
 nindē dōṣa gahem nahim kōya |  
 Śīlavāna parabrahma-svarūpa,  
 vandum ‘kunthunātha’ śivabhūpa ||17||

द्वादश-गण पूजे सुखदाय, थुति-वंदना करें अधिकाय।  
 जाकी निज-थुति कबहुँ न होय, वंदू अर जिनवर-पद दोय ||१८||

Dvādaśa-gaṇa pūjēm sukhadāya,  
 thuti-vandanā karem adhikāya |  
 Jākī nija-thuti kabahum̄ na hōya,  
 vandum ‘ara’ jinavara-pada dōya ||18||

परभवर तनत्रय-अनुराग, इहभव ब्याह-समय वैराग |  
 बाल-ब्रह्म-पूर्न-व्रत धार, वंदू मल्लिनाथ जिनसार ||१९||

Parabhava ratanatraya-anurāga,  
 ihabhava byāha-samaya vairāga |  
 Bāla-brahma-pūrana-vrata dhāra,  
 vandum ‘mallinātha’ jinasāra ||19||

बिन उपदेश स्वयं वैराग, थुति लोकांत करें पग लाग |  
 नमः सिद्ध कहि सब व्रत लेहिं, वंदू मुनिसुव्रत व्रत देहिं ||२०||

Bina upadēśa svayaṁ vairāga, thuti lōkānta kareṁ paga lāga |

Namah Sid’ dha kahi saba vrata lēhim,  
vandum ‘munisuvrata’ vrata dēhim ||20||

श्रावक विद्यावंत निहार, भगति-भाव सों दियो अहार |  
बरसी रतन-राशि तत्काल, वंदू नमि प्रभु दीनदयाल ||२१||

Śrāvaka vidyāvanta nihāra,  
bhagati-bhāva som diyō ahāra |  
Barasī ratana-rāsi tatkāla,  
vandum ‘nami’ prabhu dīnadayāla ||21||

सब जीवनि की बंदी छोड़ि, राग-द्वेष द्वै-बंधन तोर |  
राजुल तजि शिव-तिय सों मिले, नेमिनाथ वंदू सुख निले ||२२||

Saba jīvani kī bandī chōri,  
rāga-dvēṣa dvai-bandhana tōra |  
Rājula taji śiva-tiya saum milē,  
nēminātha vandum sukha nilē ||22||

दैत्य कियो उपसर्ग अपार, ध्यान देखि आयो फनिधार |  
गयो कमठ-शठ मुख कर श्याम, नमू मेरुसम पारस स्वाम ||२३||

Daitya kiyō upasarga apāra,  
dhyāna dēkhi āyō phanidhāra |  
Gayō kamaṭha-śaṭha mukha kara śyāma,  
namum mērusama ‘pārasa’ svāma ||23||

भव-सागर तें जीव अपार, धरम-पोत में धरे निहार |  
डूबत काढ़े दया-विचार, वर्द्धमान वंदू बहु-बार ||२४||

Bhava-sāgara taim jīva apāra,  
dharama-pōta mēm dharē nihāra |  
Dūbata kārhē dayā-vicāra,  
  
'vard' dhamāna' vandum bahu-bāra ||24||

(दोहा)

चौबीसों पद-कमल-जुग, वंदू मन वच काय |  
'द्यानत' पढ़े सुने सदा, सो प्रभु क्यों न सहाय ||

(Dōhā)

Chaubīsō pada-kamala-juga,  
vandum mana vaca kāya |  
'Dyānata' paṛhe sune sadā,  
sō prabhu kyōṁ na sahāya ||

# क्षमावणीपर्व-पूजा Kṣamāvaṇī Parva-Pūjā

कविश्री मल्ल Kaviśrī malla

(छप्पयछन्द)

अंग-क्षमा जिन-धर्म तनों दृढ़-मूल बखानो ।  
सम्यक्-रतन संभाल हृदय में निश्चय जानो ॥  
तज मिथ्या-विषमूल और चित निर्मल ठानो ।  
जिनधर्मी सों प्रीति करो सब-पातक भानो ॥  
रत्नत्रय गह भविक-जन, जिन-आज्ञा सम चालिए ।  
निश्चय कर आराधना, कर्मराशि को जालिये ॥  
ओं ह्रीं श्री सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान-सम्यक्चारित्ररूप-रत्नत्रय!  
अत्र अवतर अवतर संवौषट्! (आह्वाननम्)  
ओं ह्रीं श्री सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान-सम्यक्चारित्ररूप-रत्नत्रय!  
अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः! (स्थापनम्)।  
ओं ह्रीं श्री सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान-सम्यक्चारित्ररूप-रत्नत्रय!  
अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट्! (सन्निधिकरणम्)।

(chappaya chanda)

Aṅga-kṣamā jina-dharma tanōṁ dṝha-mūla bakhānō ।  
Samyak-ratana sambhāla hṛdaya mēṁ niścaya jānō ॥  
Taja mithyā-viśamūla aura cita nirmala thānō ।  
Jinadharmī som pṛīti karō saba-pātaka bhānō ॥  
Ratnatraya gaha bhavika-jana, jina-ājñā sama cāli’ē ।  
Niścaya kara ārādhanā, karmarāśi kō jāliyē ॥  
*Om hrīṁ śrī samyagdarśana-samyagjñāna-*  
*samyakcāritrarūpa-ratnatraya!*  
*Atrā avatara avatara sanvauṣat!* (āhvānanam)  
*Om hrīṁ śrī samyagdarśana-samyagjñāna-*  
*samyakcāritrarūpa-ratnatraya!*

*Atrā tiṣṭha tiṣṭha ṣha: tha: (Sthāpanam)|*  
*'Om hrīṁ śrī samyagdarśana-samyagjñāna-*  
*samyakcāritrarūpa-ratnatrāya!*  
*Atrā mama sannihitō bhava bhava vaṣṭ! (sannidhikaranam)*

नीर सुगन्ध सुहावनो, पदम-द्रह को लाय | जन्म-रोग निरवारिये, सम्यक्-रत्न लहाय ||  
 क्षमा गहो उर जीवड़ा, जिनवर-वचन गहाय| क्षमा गहो....||  
 ओं हीं श्री निशंकितांगाय नमः:, निकांक्षितांगाय नमः:, निर्विचिकित्सांगाय नमः:,  
 निर्मूढतायै नमः:, उपगूहनांगाय नमः:, स्थितिकरणांगाय नमः:, वात्सल्यांगाय नमः:, प्र  
 भावनांगाय नमः:, व्यंजनव्यंजिताय नमः:, अर्थसमग्रयाय नमः:, तदुभय- समग्रयाय नमः:,  
 कालाध्ययनाय नमः:, उपध्यानोपन्हिताय नमः:, विनयलब्धि-सहिताय नमः:,  
 गुरुवादापन्हवाय नमः:, बहुमानोन्मानाय नमः:, अहिंसाव्रताय नमः:, सत्यव्रताय नमः:,  
 अचौर्यव्रताय नमः:, ब्रह्मचर्यव्रताय नमः:, अपरिग्रहव्रताय नमः:, मनोगुप्त्यै नमः:,  
 वचनगुप्त्यै नमः:, कायगुप्त्यै नमः:, ईर्यसिमित्यै नमः:, भाषासमित्यै नमः:,  
 एषणासमित्यै नमः:, आदाननिक्षेपणसमित्यै नमः:, प्रतिष्ठापनासमित्यै नमः:  
 जन्म-जरा-मृत्यु-विनाशनाय जलं निर्वपामी तिस्वाहा ।१।

Nīra sugandha suhāvanō, padama-draha kō lāya |  
 Janma-rōga niravāriyē, samyak-ratna lahāya ||  
 Kṣamā gahō ura jīvaṛā, jinavara-vacana gahāya |  
*Om hrīṁ śrī niśāṅkitāṅgāya nama:,*  
*Nikāṅkṣitāṅgāya nama:, Nirvicikitsāṅgāya nama:,*  
*Nirmūrhatāyai nama:, Upagūhanāṅgāya nama:,*  
*Sthitikaraṇāṅgāya nama:, Vātsalyāṅgāya nama:,*  
*Prabhāvanāṅgāya nama:, Vyājanavyāñjitāya nama:,*  
*Arthasamagrāyaya nama:, Tadubhaya-*  
*samagrāyaya nama:, Kālādhyayanāya nama:,*  
*Upadhyānōpanhitāya nama:, Vinayalabdhī –*  
*sahitāya nama:, Guruvādāpanhavāya nama:,*  
*Bahumānōnmānāya nama:, Ahinsāvratāya nama:,*  
*Satyavratāya nama:, Acauryavratāya nama:,*  
*Brahmacaryavratāya nama:, Aparigrahavratāya nama:,*

*Manōguptyai nama:, Vacanaguptyai nama:,  
 Kāyaguptyai nama:, Iryāśamityai nama:,  
 Bhāśāśamityai nama:, Ēśānāśamityai nama:,  
 Ādānanikṣēpaṇasamityai nama:, Pratishṭhāpanāśamityai  
 nama: Janma-jarā-mṛtyu-vināśanāya jalāṁ  
 nirvapāmīti svāhā | 1|*

केसर चंदन लीजिये, संग-कपूर घसाय | अलि पंकति आवत घनी, वास सुगंध सुहाय ||

क्षमा गहो उर जीवड़ा, जिनवर-वचन गहाय | क्षमा गहो.....||

ओं ह्रीं श्री अष्टांगसम्यग्दर्शन- अष्टांगसम्यग्ज्ञान-त्रयोदशविधि-सम्यक्चारित्रेभ्यो

संसारताप-विनाशनाय चंदनं निर्वपामीति स्वाहा | २।

*Kēsara candana lījīyē, saṅga-kapūra  
 ghasāya ali pañkati āvata ghanī, vāsa sugandha suhāya ||  
 Kṣamā gahō ura jīvaṛā, jinavara-vacana gahāya |  
 'Om hrīṁ śrī aṣṭāṅgasamyagdarśana- aṣṭāṅgasamyagjñāna-  
 trāyōdaśavidh-samyakcāritrebhyō  
 sansāratāpa-vināśanāya candanāṁ nirvapāmīti svāhā | 2|*

शालि अखंडित लीजिए, कंचन-थाल भराय | जिनपद पूजूं भाव सों, अक्षय पद को पाय ||

क्षमा गहो उर जीवड़ा, जिनवर-वचन गहाय | क्षमा गहो.....||

ओं ह्रीं श्री अष्टांगसम्यग्दर्शन- अष्टांगसम्यग्ज्ञान-त्रयोदशविधि-सम्यक्चारित्रेभ्यो

अक्षयपद-प्राप्तये अक्षतान्निर्वपामीति स्वाहा। ३।

*Śāli akhaṇḍita lījī'ē, kañcana-thāla bharāya |  
 Jinapada pūjum bhāva som, aksaya pada kō pāya ||  
 Kṣamā gahō ura jīvaṛā, jinavara-vacana gahāya |  
 Om hrīṁ śrī aṣṭāṅgasamyagdarśana- aṣṭāṅgasamyagjñāna-  
 trāyōdaśavidh-samyakcāritrebhyō  
 aksayapada-prāptayē aksatān nirvapāmīti svāhā | 3|*

पारिजात अरु केतकी, पहुप सुगन्ध गुलाब | श्रीजिन-चरण सरोज कूँ, पूज हरष चित-चाव ||  
 क्षमा गहो उर जीवड़ा, जिनवर-वचन गहाय| क्षमा गहो.....||  
 ओं ह्रीं श्री अष्टांगसम्यगदर्शन-अष्टांगसम्यज्ञान-त्रयोदशविधि-सम्यक्चारित्रेभ्यो  
 कामबाण- विध्वंसनाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।४।

Pārijāta aru kētakī, pahupa sugandha gulāba |  
 Śrījina-caraṇa sarōja kūṁ, pūja haraṣa cita-cāva ||  
 Kṣamā gahō ura jīvaṛā, jinavara-vacana gahāya |  
 Om hrīṁ śrī aṣṭāṅgasamyagdarśana-aṣṭāṅgasamyagjñāna-  
 trāyōdaśavidh-samyakcāritrebhyō kāmabāṇa-  
 vidhvansanāya puṣpam nirvapāmīti svāhā |4|

शक्कर घृत सुरभी तनों, व्यंजन षट्-रस-स्वाद | जिनके निकट चढ़ाय कर, हिरदे धरि आह्लाद ||  
 क्षमा गहो उर जीवड़ा, जिनवर-वचन गहाय| क्षमा गहो.....||  
 ओं ह्रीं श्री अष्टांगसम्यगदर्शन-अष्टांगसम्यज्ञान-त्रयोदशविधि-सम्यक्चारित्रेभ्यो  
 क्षुधारोग-विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।५।

Śakkara ghṛta surabhī tanōṁ, vyāñjana ṣaṭraraṣa-svāda |  
 Jinakē nikaṭa carhāya kara, hiradē dhari āhlāda ||  
 Kṣamā gahō ura jīvaṛā, jinavara-vacana gahāya |  
 Om hrīṁ śrī aṣṭāṅgasamyagdarśana- aṣṭāṅgasamyagjñāna-  
 trāyōdaśavidh-samyakcāritrebhyō kṣudharōga-  
 vināśanāya naivēdyam nirvapāmīti svāhā |5|

हाटकमय दीपकर चो, बाति कपूर सुधार | शोधित घृत कर पूजिये, मोह-तिमिर निखार ||  
 क्षमा गहो उर जीवड़ा, जिनवर-वचन गहाय| क्षमा गहो.....||  
 ओं ह्रीं श्री अष्टांगसम्यगदर्शन-अष्टांगसम्यज्ञान-त्रयोदशविधि-सम्यक्चारित्रेभ्यो  
 मोहांधकार-विनाशनाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।६।

Hāṭakamaya dīpaka racō, bāti kapūra sudhāra |  
 Śōdhita ghṛta kara pūjyē, mōha-timira niravāra ||  
 Kṣamā gahō ura jīvarā, jinavara-vacana gahāya |

*Om hrīm śrī aṣṭāṅgasamyagdarśana-*  
*aṣṭāṅgasamyagjñāna-trāyōdaśavidh-samyakcāritrebhyō*  
*mōhāndhakāra-vināśanāya dīpam nirvapāmīti svāhā |6|*

कृष्णागर करपूर हो, अथवा दशविध जान | जिन-चरणन ढिंग खेइये, अष्ट-करम की हान ||  
 क्षमा गहो उर जीवड़ा, जिनवर-वचन गहाय | क्षमा गहो.....||  
 ओं ह्रीं श्री अष्टांगसम्यगदर्शन-अष्टांगसम्यज्ञान-त्रयोदशविधि-सम्यक्चारित्रेभ्यो  
 अष्टकर्म-दहनाय धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।७।

Kṛṣṇāgara karapūra hō, athavā daśavidha jāna |  
 Jina-caraṇana ḥhiṅga khē’iyē, aṣṭa-karama kī hāna ||  
 Kṣamā gahō ura jīvarā, jinavara-vacana gahāya |

*Om hrīm śrī aṣṭāṅgasamyagdarśana-*  
*aṣṭāṅgasamyagjñāna-trāyōdaśavidh-*  
*samyakcāritrebhyō aṣṭakarma-dahanāya dhūpam nirvapāmīti svāhā |7|*

केला अम्ब अनार फल, नारिकेल ले दाख | अग्र धरूं जिनपद तने, मोक्ष होय जिन भाख ||  
 क्षमा गहो उर जीवड़ा, जिनवर-वचन गहाय| क्षमा गहो.....||  
 ओं ह्रीं श्री अष्टांगसम्यगदर्शन-अष्टांगसम्यज्ञान-त्रयोदशविधि-सम्यक्चारित्रेभ्यो  
 मोक्षफल-प्राप्तये फलं निर्वपामीति स्वाहा ।८।

Kēlā amba anāra phala, nārikēla lē dākha |  
 Agra dharum jinapada tanē, mōkṣa hōya jina bhākha ||  
 Kṣamā gahō ura jīvarā, jinavara-vacana gahāya |

*Om hrīm śrī aṣṭāṅgasamyagdarśana-*  
*aṣṭāṅgasamyagjñāna-trāyōdaśavidh-*  
*samyakcāritrōbhyo mōkṣapaphala-prāptayē*  
*paphalam nirvapāmīti svāhā |8|*

जल-फल आदि मिलायके, अरघ करो हरषाय | दुःख-जलांजलि दीजिए, श्रीजिन होय सहाय ||

क्षमा गहो उरजी वड़ा, जिनवर-वचन गहाय |

ओं ह्रीं श्री अष्टांगसम्यगदर्शन-अष्टांगसम्यग्ज्ञान-त्रायोदशविध्-सम्यक्चारित्रोभ्यो  
अनधर्यपद-प्राप्तये अधर्यं निर्वपामीति स्वाहा ।९।

Jala-phala ādi milāyakē, aragha karō haraśāya |

Du:Kha-jalāñjali dīji'ē, śrījina hōya sahāya ||

Kṣamā gahō ura jīvara, jinavara-vacana gahāya |

*Om hrīm śrī aṣṭāṅgasamyagdarśana-  
aṣṭāṅgasamyagjñāna-trāyōdaśavidh-samyakcāritrebhyō  
anarghyapada-prāptayē arghyam nirvapāmīti svāhā |9|*

## जयमाला Jayamālā

(दोहा)

उनतिस-अंग की आरती, सुनो भविक चित लाय |

मन वच तन सरधा करो, उत्तम नर-भव पाय ||१||

(dōhā)

Unatisa-aṅga kī āratī, sunō bhavika cita lāya |  
Mana vaca tana saradhā karō, uttama nara-bhava pāya ||1||

(चौपाईङ्घन्द)

जैनधर्म में शंक न आने, सो निःशंकित गुण चित ठाने |

जप तप का फल वाँछे नाहीं, निःकांक्षित गुण हो जिस माँहीं ||२||

(Caupāi chanda)

Jainadharma mēṁ śaṅka na āne,

sō ni:Śaṅkita guṇa cita ṭhāne |

Japa tapa kā phala vāṁchē nāhīṁ,

ni:Kāṅkṣita guṇa hō jisa māṁhīṁ ||2||

पर को देखि गिलान न आने, सो तीजा सम्यक्गुण ठाने ।  
आन देव को रंच न माने, सो निर्मूढता गुण पहिचाने ॥३॥

Para kō dēkhi gilāna na ānē,  
sō tījā samyak guṇa ṭhāne ।  
Āna dēva kō rañca na mānē,  
sō nirmūr̥hatā guṇa pahicāne ॥३॥

पर को औगुण देख जु ढाँके, सो उपगूहन श्रीजिन भाखे ।  
जैनधर्म तें डिगता देखे, थापे बहुरि थितिकर लेखे ॥४॥

Para kō auguṇa dēkha ju ḍhāṁkē,  
sō upagūhana śrījina bhākhe ।  
Jainadharma tem̥ ḏigatā dēkhe,  
thāpē bahuri thitikara lēkhe ॥४॥

जिन-धर्मी सों प्रीति निबहिये, गऊ-बच्छावत्वच्छल कहिये ।  
ज्यों त्यों जैन-उद्योत बढ़ावे, सो प्रभावना-अंग कहावे ॥५॥

Jina-dharmī som̥ prīti nibahiyē,  
ga'ū-bacchāvat vacchala kahiyē ।  
Jyōm tyōm jaina-udyōta baṛhāve,  
sō prabhāvanā-aṅga kahāve ॥५॥

अष्ट-अंग यह पाले जोई, सम्यग्दृष्टि कहिये सोई ।  
अब गुण-आठ ज्ञान के कहिये, भाखे श्रीजिन मन में गहिये ॥६॥

Aṣṭa-aṅga yaha pālē jōi,  
samyagdṛṣṭi kahiyē sōi ।  
Aba guṇa-āṭha jñāna kē kahiyē,  
bhākhē śrījina mana mēm gahiyē ॥६॥

व्यंजन-अक्षर-सहित पढ़ीजे, व्यंजन-व्यंजित अंग कहीजे ।  
अर्थ-सहित शुध-शब्द उचारे, दूजा अर्थ-समग्रह धारे ॥७॥

Vyañjana-akṣara-sahita paṛhīje,  
vyañjana-vyañjita aṅga kahīje ।  
Artha-sahita śudha-śabda ucāre,  
dūjā artha-samagraha dhāre ॥७॥

तदुभय तीजा-अंग लखीजे, अक्षर-अर्थ-सहित जु पढ़ीजे ।  
चौथा कालाध्ययन विचारे, काल समय लखि सुमरण धारे ॥८॥

Tadubhaya tījā-aṅga lakhīje,  
akṣara-artha-sahita ju paṛhīje ।  
Cauthā kālādhayana vicāre,  
kāla samaya lakhi sumaraṇa dhāre ॥८॥

पंचम अंग उपधान बतावे, पाठ सहित तब बहु फल पावे ।  
षष्ठम विनय सुलब्धि सुनीजे, वानी विनयसु पढ़ीजे ॥९॥

Pañcama aṅga upadhāna batāve,  
pāṭha sahita taba bahu phala pāve ।  
Saṣṭama vinaya sulabdhi sunīje,  
vānī vinayasu paṛhīje ॥९॥

जापै पढ़ै न लौपै जाई, सप्तम अंग गुरुवाद कहाई ।  
गुरु की बहुत विनय जु करीजे, सो अष्टम-अंग धर सुख लीजे ॥१०॥

Jāpai paṛhai na laupai jāi,  
saptama aṅga guruvāda kahāi ।  
Guru kī bahuta vinaya ju karīje,  
sō aṣṭama-aṅga dhara sukha līje ॥१०॥

ये आठों अंग ज्ञान बढ़ावें, ज्ञाता मन वच तन कर ध्यावें |  
अब आगे चारित्र सुनीजे, तेरह-विध धर शिवसुख लीजे ||११||

Ye āṭhōṁ aṅga jñāna baṛhāven,  
jñātā mana vaca tana kara dhyāven |  
Aba ḍāgē cāritra sunīje,  
tēraha-vidha dhara śivasukha līje ||11||

छहों काय की रक्षा करिए, सोई अहिंसा व्रत चित धरिए |  
हित मित सत्य वचन मुख कहिये, सो सतवादी केवल लहिये ||१२||

Chahōṁ kāya kī rakṣā kari’ē,  
sōi ahinsā vrata cita dhari’ē |  
Hita mita satya vacana mukha kahiyē,  
sō satavādī kēvala lahiyē ||12||

मन वच काय न चोरी करिये, सोई अचौर्य व्रत चित धरिये |  
मन्मथ-भय मन रंच न आने, सो मुनि ब्रह्मचर्य-व्रत ठाने ||१३||

Mana vaca kāya na cōrī kariyē,  
sōi acaurya vrata cita dhariyē |  
Manmatha-bhaya mana rañca na ānē,  
sō muni brahmacarya-vrata ṭhāne ||13||

परिग्रह देख न मूर्छित होई, पंच-महाव्रत-धारक सोई |  
ये पाँचों महाव्रत सुखरे हैं, सब तीर्थकर इनको करे हैं ||१४||

Parigraha dēkha na mūrchita hōi,  
pañca-mahāvrata-dhāraka sōi |  
Yē pāṁcōṁ mahāvrata su kharē haim,  
saba tīrthaṅkara inakō karē haim ||14||

मन में विकल्प रंच न होई, मनोगुप्ति मुनि कहिये सोई |  
वचन अलीक रंच नहिं भाखें, वचन गुप्ति सो मुनिवर राखें ||१५||

Mana mēm vikalpa rañca na hōi,  
manōgupti muni kahiyē sōi |  
Vacana alīka rañca nahim bhākhēm,  
vacanagupti sō munivara rākhem ||15||

कायोत्सर्ग परीषह सहे हैं, ता मुनि कायगुप्ति जिन कहे हैं |  
पंच समिति अब सुनिए भाई, अर्थ-सहित भाषे जिनराई ||१६||

Kāyōtsarga parīṣaha sahe hain,  
tā muni kāyagupti jina kahe hain |  
Pañca samiti aba suni'ē bhāi,  
artha-sahita bhāṣē jinarāi ||16||

हाथ-चार जब भूमि निहारें, तब मुनि ईर्या-मग पद धारें |  
मिष्ट वचन मुख बोले सोई, भाषा-समिति तास मुनि होई ||१७||

Hātha-cāra jaba bhūmi nihāren,  
taba muni iryā-maga pada dhāren |  
Miṣṭa vacana mukha bōle sōi,  
bhāṣā-samiti tāsa muni hōi ||17||

भोजन छयालिस दूषण टारे, सो मुनि एषण-शुद्धि विचारे |  
देख के पोथी लें रु धरे हैं, सो आदान-निक्षेपन वरे हैं ||१८||

Bhōjana chayālisa dūṣaṇa ṭārē,  
sō muni ēṣaṇa-śud'dhi vicārē |  
Dēkha kē pōthī lēn ru dhare haim,  
sō ādāna-nikṣēpana vare haim ||18||

मल-मूत्र एकांत जु डारें, परतिष्ठापन समिति संभारें |  
यह सब अंग उनतीस कहे हैं, जिन भाखे गणधरन गहे हैं ||१९||

Mala-mūtra ēkānta ju ḍāren,  
paratiṣṭhāpana samiti sambhāren |  
Yaha saba aṅga unatīsa kahē haim,  
jina bhākhē gaṇadharana gahē haim ||19||

आठ-आठ तेरहविध जानो, दर्शन-ज्ञान-चारित्र सु ठानो |  
ता तें शिवपुर पहुँचो जाई, रत्नत्रय की यह विधि भाई ||२०||

Āṭha-āṭha tērahavidha jānōṁ,  
darśana-jñāna-cāritra su ṭhānō |  
Tā ten śivapura pahuṁcō jāi,  
ratnatraya kī yaha vidhi bhāi ||20||

रत्नत्रय पूरण जब होई, क्षमा क्षमा करियो सब कोई |  
चैत माघ भादों त्रय बारा, क्षमा-पर्व हम उर में धारा ||२१||

Ratnatraya pūraṇa jaba hōi,  
kṣamā kṣamā kariyō saba kōi |  
Caita māgha bhādōṁ traya bārā,  
kṣamā-parva hama ura mēṁ dhārā ||21||

(दोहा)  
यह ‘क्षमावणी’-आरती, पढ़े-सुने जो कोय |  
कहे ‘मल्ल’ सरधा करो, मुक्ति-श्रीफल होय ||२२||

(Dōhā)

Yaha ‘kṣamāvanī’-āratī,  
paṛhē-sunē jō kōya |  
Kahē ‘malla’ saradhā karō,  
mukti-śrīphala hōya ||22||

ओं हीं श्री अष्टांगसम्यगदर्शन-अष्टांगसम्यग्ज्ञान-त्रयोदशविध  
सम्यकचारित्रेभ्यो जयमाला-पूर्णधर्म निर्वपामीति स्वाहा।

‘Om hrīṁ śrī aṣṭāṅgasamyagdarśana-aṣṭāṅgasamyagjñāna  
-trāyōdaśavidh samyakcāritrebhyō jayamālā-  
pūrnārghyam nirvapāmīti svāhā.

(सोरठा)

दोष न गहिये कोय, गुण-गण गहिये भावसों |  
भूल-चूक जो होय, अर्थ-विचारि जु शोधिये ||

(Sōraṭhā)

Dōṣa na gahiyē kōya, guṇa-gaṇa gahiyē bhāvasōṁ |  
Bhūla-cūka jō hōya, artha-vicāri ju sōdhiyē ||

॥इत्याशीर्वदः पुष्पांजलिंक्षिपेत्॥

|| *Ityāśīrvāda: Puṣpāñjalim kṣipēt* ||